

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(सम विश्वविद्यालय)

CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES
(Deemed University)

SARNATH, VARANASI-221007, U.P., INDIA



**अंकेक्षित एवं प्रमाणित वार्षिक वित्तीय विवरण 2011-2012
Audited & Certified Annual Financial Statements
Year 2011 - 2012**

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi for the year ended 31 March 2012.

We have audited the attached Balance Sheet of Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi as at 31 March 2012, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on the date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Rule 45 of the Rules of the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi registered under the Societies Registration Act, 1860. The audit has been entrusted for the period up to 2013-14. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. **Based on our audit, we report that :**
 - I. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - II. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance.
 - III. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the University as required under Rule 45 of the Rules of the Central University of Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, in so far as it appears from our examination of such books.

IV. We further report that:

A. Balance Sheet:

Fixed Assets (Schedule-8)

- A.1 The University has capitalized an amount of Rs. 24,19,000/- which was part payment of 1000 KV substation under the Head Fixed Assets-Plant Machinery and Equipments and charged depreciation of Rs. 1.15 lakh for the year 2011-12. Since the equipment has not been commissioned/installed, the part payment on such equipment should be shown under the Head “Work in Progress” and no depreciation was chargeable. Consequently the Fixed assets were overstated by Rs. 23.04 lakh. Capital Work-in-Progress was understated by Rs. 24.19 lakh and Depreciation is overstated by Rs. 1.15 lakh.
- A.2 An expenditure of Rs. 2,44,340/- was incurred towards the construction of boundary wall and shown under the Head “Land” (Schedule-8) as addition during the year 2011-12.

The construction of boundary wall should be shown under the Head “Construction/Extension of Boundary wall”. Thus, head “Land” is overstated and the head “Construction/Extension of Boundary wall” is understated by Rs. 2,44,340/-

- A.3 An amount of Rs. 4,51,88,854/- was shown as addition during the year 2011-12 in ‘Cost of Building’ HSWCL. Since the above building works are still in progress, the same should have been shown as Work in Progress. Thus the head Buildings was overstated by Rs. 4,51,88,854/- & “Work in Progress” was understated by same amount.

Further depreciation of Rs. 14,07,158/- was charged on addition to the Building. Resultantly depreciation is overstated and Fixed Asset are understated by Rs. 14,07,158/-.

B. Receipts and Payments Account

- B.1 Out of grant of Rs. 2,23,93,000/- shown as received during March 2012 in Receipt and Payment Account, an amount of Rs. 1,73,93,000/- was actually received through RTGS on 3.4.12. Thus the Receipts were overstated by Rs. 1,73,93,000/-

C. General

- C.1 Receipts and Payments of Sowa Rigpa department have not been shown in the annual account (R & P acct and I & E acct) of the University and, as such, total sale/receipt amounting Rs. 5.62 lakh and Payment/Expenditure amounting to Rs. 3.47 lakh have not been depicted in the account of year 2011-12.

C.2 The Annual accounts of the University have been prepared partly on accrual basis and partly on cash basis.

D. Grants-in-aid:

The University is mainly funded by the grants from the Ministry of Culture, Government of India. During the year 2011-12, University received grants-in-aid Rs. 1735.87 lakh (Plan Rs. 579.97 lakh, Non-Plan Rs. 983.90 lakh, (U.G.C. (General Development) Rs. 99.00 lakh, UGC merged scheme Rs. 73.00 lakh). University has also opening unspent balance of grant of Rs. 135.89 lakh and other income of Rs. 40.88 lakh. (Grant received during the March, 2012 was Rs. 223.93 lakh).

The University utilized grant of Rs. 1807.27 lakh (Plan Rs. 580.00 lakh, Non-Plan Rs. 1024.69 lakh including income/recoveries, U.G.C. (G.D.+M.S.) 192.99 lakh. North East Region Rs. 9.59 lakh) and there was an unspent balance of grant of Rs. 105.37 lakh.

- V. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- VI. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi as on 31 March 2012; and
 - b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on the date.

For and on behalf of the C & AG of India

Place: Allahabad
Date : 28.09.2012

Sd.

**Principal Director of Audit
(Central), Lucknow**

Annexure**1. Internal Audit System**

No internal audit wing existed in the University during 2011-12, however Internal audit was conducted by a Chartered Accountant firm for the year 2011-12.

2. Internal Control System

Internal control system is adequate and functional formalities as required were done by Deputy Registrar, Assistant Registrar, Estate Officer, Accounts-in-charge and their staff.

3. System of Physical verification of fixed asset

The University has not prepared centralized asset register. The physical verification of fixed assets was conducted up to March 2011.

4. System of Physical verification of inventory

The physical verification of inventory was conducted up to March 2011.

5. Regularity in payment of statutory dues

There were no statutory dues outstanding against the University.

Sd.
Director Audit (Central)

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

| | | (Amount in Rs.) | (Amount in Rs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| LIABILITIES- | Schedule | Current Year 2011-12 | Previous Year 2010-11 |
| CORPUS/CAPITAL FUND | 1 | 75,867,515.68 | 74,519,071.68 |
| RESERVES AND SURPLUS | 2 | 364,518,180.53 | 317,325,705.55 |
| EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS | 3 | 13,611,383.81 | 16,099,067.42 |
| SECURED LOANS AND BORROWINGS | 4 | 0.00 | 0.00 |
| UNSECURED LOANS AND BORROWINGS | 5 | 0.00 | 0.00 |
| DEFERRED CREDIT LIABILITIES | 6 | 0.00 | 0.00 |
| CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS | 7 | 73,405,394.80 | 62,993,745.80 |
| TOTAL | | 527,402,474.82 | 470,937,590.45 |
| ASSETS- | | | |
| FIXED ASSETS (Net Block after depreciation) | 8 | 329,691,306.51 | 278,669,089.53 |
| INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS | 9 | 0.00 | 0.00 |
| INVESTMENTS-OTHERS | 10 | 150,722,961.80 | 138,609,500.80 |
| CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. | 11 | 46,988,206.51 | 53,659,000.12 |
| MISCELLANEOUS EXPENDITURE <i>(to the extent not written off or adjusted)</i> | | | |
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 24 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENT LIABILITIES & NOTES ON ACCOUNTS | 25 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 527,402,474.82 | 470,937,590.45 |

Sd.
(L. K. MISHRA)
 In-charge (Accounts)

Sd.
(DR. DEO RAJ SINGH)
 Registrar

Sd.
(PROF. NGAWANG SAMTEN)
 Vice Chancellor

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2012

| | | (Amount in Rs.) | (Amount in Rs.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| INCOME | Schedule | Current Year 2011-12 | Previous Year 2010-11 |
| Income from Sales/Services | 12 | 849,050.00 | 770,496.00 |
| Grants/Subsidies | 13 | 120,910,008.23 | 125,304,819.20 |
| Fees/Subscriptions | 14 | 0 | 0.00 |
| Income from Investments (Income on Invest. from earmarked/endow. Funds transferred to Funds) | 15 | 1,486,747.00 | 1,076,454.00 |
| Income from Royalty, Publication etc. | 16 | 0.00 | 0.00 |
| Interest Earned | 17 | 0.00 | 0.00 |
| Other Income | 18 | 346,473.00 | 530,789.00 |
| Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress | 19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (A) | | 123,592,278.23 | 127,682,558.20 |
| EXPENDITURE | | | |
| Establishment Expenses | 20 | 83,545,612.00 | 76,842,421.00 |
| Other Administration Exp. | 21 | 40,046,666.23 | 50,840,137.20 |
| Expenditure on Grants, Subsidies etc. | 22 | 0.00 | 0.00 |
| Interest | 23 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciation (Net Total at the year-end - corresponding to Schedule 8) | | 8,585,538.00 | 7,143,126.65 |
| TOTAL (B) | | 132,177,816.23 | 134,825,684.85 |
| Balance being excess of Expenditure over Income (B-A) | | (8,585,538.00) | (7,143,126.65) |
| Transfer to Special Reserve (Specify each) | | 0.00 | 0.00 |
| Transfer to/from General Reserve | | 0.00 | 0.00 |
| BALANCE BEING SURPLUS/DEFICIT) CARRIED TO GENERAL RESERVE | | 0.00 | 0.00 |
| SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 24 | 0.00 | 0.00 |
| CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS | 25 | 0.00 | 0.00 |

Sd.

(L. K. MISHRA)
In-charge (Accounts)

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)
Vice Chancellor

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

| SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND : | | Current Year 2011-12 | | Previous Year 2010-11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| Balance as at the beginning of the year (Donation Rs.63,654,348.68 & Interest Rs.10,854,271.32) | 74,519,071.68 | | 62,576,675.68 | |
| Addition during the year | 116,655.00 | | 11,942,496.00 | |
| Less : Deduction during the year (Interest Utilized) | 832.00 | 74,634,894.68 | 100.00 | 74,519,071.68 |
| FD of Revolving Fund of Sowa-Rigpa | 600,000.00 | | 0.00 | |
| Interest of Revolving Fund | 632,621.00 | 1,232,621.00 | 0.00 | |
| TOTAL Rs. | | 75,867,515.68 | | 74,519,071.68 |
| SCHEDULE 2-RESERVES AND SURPLUS : | | | | |
| A. Capital Reserve (land) : As per last Account | 30,450,748.84 | | 13,889,155.84 | |
| Addition during the year | 244,340.00 | | 16,561,593.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 30,695,088.84 | 0.00 | 30,450,748.84 |
| B. Capital Reserve (Building fund) : As per last Account | 175,480,879.32 | | 147,459,985.32 | |
| Addition during the year | 45,188,854.00 | | 28,020,894.00 | |
| Add: Trnsfer of figure from Other Assets- | 430,000.00 | | | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 221,099,733.32 | 0.00 | 175,480,879.32 |
| C. Capital Reserve (Waste water system) : As per last Account | 6,464,700.00 | | 6,464,700.00 | |
| Addition during the year (Corection entry)* | 200.00 | | 0.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 6,464,900.00 | 0.00 | 6,464,700.00 |
| D. Capital Reserve (Underground cabling) : As per last Account | 3,298,000.00 | | 3,298,000.00 | |
| Addition during the year | 0.00 | | 0.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 3,298,000.00 | 0.00 | 3,298,000.00 |
| E. Capital Reserve (Advance for building & P.V.V.Nigam) : | | | | |
| As per last Account | 29,058,413.00 | | 31,533,829.00 | |
| Addition during the year | 7,252,243.00 | | 6,450,000.00 | |
| Less : Deductions during the year (with corection enty of Rs.200.00)* | 11,550,200.00 | 24,760,456.00 | 8,925,416.00 | 29,058,413.00 |
| F. Capital Reserve (Interest earned on Building Fund) : | | | | |
| As per last Account | 0.00 | | 8,667,827.00 | |
| Addition during the year | 0.00 | | 2,528,601.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | - | 11,196,428.00 | 0.00 |
| G. Capital Reserve (Other Assets) : As per last Account | 72,572,964.39 | | 64,654,932.41 | |
| Addition during the year | 18,760,978.58 | | 18,361,319.43 | |
| Less Transfer entry of Building fund* | 430,000.00 | | | |
| Less : Deduction during the year (Assets by sale & recovery) | 4,118,402.60 | | 3,300,160.80 | |
| Special Reserve (Depreciation) : As per last Account | 0.00 | | | |
| Less : Depreciation of current years I & E A/C | 8,585,538.00 | 78,200,002.37 | 7,143,126.65 | 72,572,964.39 |
| TOTAL Rs. | | 364,518,180.53 | | 317,325,705.55 |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

(Amount-Rs.)

| SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS | Current Year 2011-12 | | Previous Year 2010-11 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|
| (a) Opening balance (Prof. K. S. Murty, A.K.Saran & Preeti Endowment funds Rs. 6,24,413.00 & Interest Rs. 5,41,222.00) | | | | |
| As per last Account | 1,165,635.00 | | 1,165,635.00 | |
| Addition during the year | 363,536.00 | | 0.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 1,529,171.00 | 0.00 | 1,165,635.00 |
| (b) Balance of UGC Grant for 11th General Development | | | | |
| As per last Account | 27,536.00 | | (-) 5161.00 | |
| Addition during the year | 9,900,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| Less : Expenditure during the year | 9,824,616.25 | 102,919.75 | 9,967,303.00 | 27,536.00 |
| (c) Balance of UGC Grant for Merged Schemes | | | | |
| As per last Account | 9,751,761.00 | | 13,326,245.00 | |
| Addition during the year | 7,300,000.00 | | 0.00 | |
| Less : Expenditure during the year | 9,474,193.00 | 7,577,568.00 | 3,574,484.00 | 9,751,761.00 |
| (d) Balance of fund received from National Medicinal Plant Board. | | | | |
| As per last Account | 500,000.00 | | 0.00 | |
| Addition during the year | 0.00 | | 500,000.00 | |
| Less : Deductions during the year | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| (e) Fund received by Prof. J.Garfield.Tasmania University | | | | |
| As per last Account | 12,284.60 | | 0.00 | |
| Addition during the year | 400,000.00 | | 496,633.60 | |
| Less : Deductions during the year | 374,379.00 | 37,905.60 | 484,349.00 | 12,284.60 |
| TOTAL C/F | | 9,747,564.35 | | 11,457,216.60 |

| | | Current Year 2011-12 | Previous Year 2010-11 |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | TOTAL B/F | 9,747,564.35 | 11,457,216.60 |
| | (f) Unspent balance of Non-Plan | | |
| Rs.) | As per last Account | 3,330.64 | 406,170.27 |
| | Addition during the year (Govt. grant) | 98,389,670.00 | 108,291,432.00 |
| | Addition during the year (University Income) | 4,087,585.00 | |
| | Less : Deductions during the year | 102,468,577.91 | 108,694,271.63 |
| | (g) Unspent balance of Plan | | 3,330.64 |
| | As per last Account | 2,640.18 | 8,358.18 |
| | Addition during the year | 57,997,360.00 | 57,991,642.00 |
| | Less : Deductions during the year | 57,999,852.65 | 147.53 |
| | (h) Unspent balance of North East Region Projects | | 2,640.18 |
| .00 | As per last Account | 3,803,958.00 | 0.00 |
| | Addition during the year | 0.00 | 4,818,000.00 |
| | Less : Deductions during the year | 959,395.00 | 2,844,563.00 |
| | (i) Unspent balance Corpus Kosh Interest | | 3,803,958.00 |
| | As per last Account | 212,064.00 | 1,180,487.00 |
| | Addition during the year | 874,557.00 | 1,536,677.00 |
| | Less : Deductions during the year | 1,086,060.00 | 561.00 |
| | (j) Unspent balance of Donation | | 212,064.00 |
| | As per last Account | 500,000.00 | 0.00 |
| | Addition during the year | 0.00 | 4,000,000.00 |
| | Less : Deductions during the year | 0.00 | 500,000.00 |
| | (k) Unspent balance of Endowment Expenditure | | 500,000.00 |
| | As per last Account | 40,408.00 | 32,497.00 |
| | Addition during the year | 0.00 | 45,997.00 |
| | Less : Deductions during the year | 39,160.00 | 1,248.00 |
| | (l) Unspent balance of Dharmashala fund | | 40,408.00 |
| | As per last Account | 79,450.00 | 0.00 |
| | Addition during the year | 535,000.00 | 1,309,450.00 |
| | Less : Deductions during the year | 614,450.00 | - |
| | (M) Stipend Received from Higher Technical Education (A.P.) | 5,425.00 | |
| | Less : Deductions during the year | 0.00 | 5,425.00 |
| | (N) Balance of Sowa-Rigpa revalving fund as per S.B. Account | 499,867.20 | 0.00 |
| | TOTAL Rs. | | 16,099,067.42 |
| | | 13,611,383.81 | |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

| SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS: | Current Year 2011-12 | | Previous Year 2010-11 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| A. <u>CURRENT LIABILITIES OF GPF & CPF OF EMPLOYEES AS PER BANK & INVESTMENT IN KDR/UTI</u> | | | | |
| Opening balance of fixed deposits | 50,636,161.00 | | 41,618,273.00 | |
| Addition of Fix deposits of the year | 53,595,825.00 | | 27,740,784.00 | |
| Adjustment during the year | 36,914,487.00 | 67,317,499.00 | 18,722,896.00 | 50,636,161.00 |
| Opening balance of GPF/CPF saving A/C | 1,049,181.80 | | 1,876,181.80 | |
| Addition during the year | 37,575,423.00 | | 16,623,741.00 | |
| Adjustment during the year | 37,363,388.00 | 1,261,216.80 | 17,450,741.00 | 1,049,181.80 |
| Interest accrued but not received opening balance | 11,249,903.00 | | 10,736,067.00 | |
| Interest accrued during the year 2009-10 | (-) 6,492,724.00 | 4,757,179.00 | 513,836.00 | 11,249,903.00 |
| SUB TOTAL | | 73,335,894.80 | | 62,935,245.80 |
| B. <u>SECURITY OF LIBRARY READERS</u> | | | | |
| As per last Account | 58,500.00 | | 56,500.00 | |
| Addition during the year | 14,000.00 | | 4,000.00 | |
| Less : Deductions during the year | 3,000.00 | 69,500.00 | 2,000.00 | 58,500.00 |
| TOTAL RS. (A+B) | | 73,405,394.80 | | 62,993,745.80 |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

SCHEDULE-8 FIXED ASSETS:

(Amount in Rs.)

| PARTICULARS | GROSS BLOCK | | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| | Rate (SLM) | Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2011 | Additions during the year 2011-12 | Deductions during the year 2011-12 | Cost/valuation at the year-end on 31.3.2012 | As at the beginning of the year 2011-12 | During the year 2011-12 | On Deductions during the 2011-12 | Total up to the year-end on 31.03.2012 | As on 31.03.2012 | As on 31.03.2011 |
| Fixed assets: Fixed Assets (as taken, valued and certified by the principal officer) | | | | | | | | | | | |
| 1. Land | | | | | | | | | | | |
| Land at cost | | 30,450,748.84 | 244,340.00 | 0.00 | 30,695,088.84 | 0.00 | | 0.00 | - | 30,695,088.84 | 30,450,748.84 |
| 1. Buildings | | | | | | | | | | | |
| Cost of Building made by | | | | | | | | | | | |
| (a) The CPWD | 1.63% | 40,343,914.51 | 0.00 | 0.00 | 40,343,914.51 | 3,309,466.12 | 657,606.00 | 0.00 | 3,967,072.12 | 36,376,842.39 | 37,034,448.39 |
| (b) The PWD | 1.63% | 9,885,607.49 | 0.00 | 0.00 | 9,885,607.49 | 483,406.20 | 161,135.00 | 0.00 | 644,541.20 | 9,241,066.29 | 9,402,201.29 |
| (c) The RNN LTD | 1.63% | 10,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,140,000.00 | 831,798.00 | 165,282.00 | 0.00 | 997,080.00 | 9,142,920.00 | 9,308,202.00 |
| (d) Cost of Building by HSWCL | 1.63% | 41,139,828.00 | 45,188,854.00 | 0.00 | 86,328,682.00 | 953,803.00 | 1,407,158.00 | 0.00 | 2,360,961.00 | 83,967,721.00 | 40,186,025.00 |
| (e) The C. & D.S. UP Jaligam | 1.63% | 72,527,749.00 | - | 0.00 | 72,527,749.00 | 3,942,023.16 | 1,182,202.00 | 0.00 | 5,124,225.16 | 67,403,523.84 | 68,585,725.84 |
| Dept. Building | 1.63% | 747,367.82 | 0.00 | 0.00 | 747,367.82 | 61,307.30 | 1,000.00 | 0.00 | 62,307.30 | 685,060.52 | 686,060.52 |
| Construction/Ext. Boundary wall | 1.63% | 112,848.50 | 0.00 | 0.00 | 112,848.50 | 9,257.06 | 1,839.00 | 0.00 | 11,096.06 | 101,752.44 | 103,591.44 |
| Construction of Basketball play ground | 1.63% | 100,564.00 | 0.00 | 0.00 | 100,564.00 | 8,249.98 | 1,639.00 | 0.00 | 9,888.98 | 90,675.02 | 92,314.02 |
| Waste water System | 1.63% | 6,464,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,464,900.00 | 423,227.77 | 105,378.00 | 0.00 | 528,605.77 | 5,936,294.23 | 6,041,672.23 |
| Cost of Fountain | 1.63% | 913,000.00 | 0.00 | 0.00 | 913,000.00 | 51,654.90 | 14,882.00 | 0.00 | 66,536.90 | 846,463.10 | 861,345.10 |
| Under ground cabling | 1.63% | 3,298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298,000.00 | 268,786.60 | 53,758.00 | 0.00 | 322,544.60 | 2,975,455.40 | 3,029,213.40 |
| 3. Plant, Machinery & Equipments | | | - | - | | | | - | | | |
| Tubewell | 4.75% | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 95,760.00 | 15,960.00 | 0.00 | 111,720.00 | 224,280.00 | 240,240.00 |
| Transformer | 4.75% | 162,855.00 | 0.00 | 0.00 | 162,855.00 | 46,412.82 | 7,736.00 | 0.00 | 54,148.82 | 108,706.18 | 116,442.18 |
| Cost of 1000 KVS Sub Station | 4.75% | 0.00 | 2,419,000.00 | 0.00 | 2,419,000.00 | 0.00 | 114,903.00 | 0.00 | 114,903.00 | 2,304,097.00 | 0.00 |
| Internet donated by Orient foundation | 4.75% | 447,900.00 | 0.00 | 0.00 | 447,900.00 | 127,651.40 | 21,275.00 | 0.00 | 148,926.40 | 298,973.60 | 320,248.60 |
| Internet (by library) | 4.75% | 1,248,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,700.00 | 355,879.25 | 59,313.00 | 0.00 | 415,192.25 | 833,507.75 | 892,820.75 |
| TOTAL C/F | | 218,319,983.16 | 47,852,194.00 | - | 266,172,177.16 | 10,968,683.56 | 3,971,066.00 | - | 14,939,749.56 | 251,232,427.60 | 207,351,299.60 |

| PARTICULARS | GROSS BLOCK | | | | | DEPRECIATION | | | | | NET BLOCK | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | Rate (SLM) | Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2011 | Additions during the year 2011-12 | Deductions during the year 2011-12 | Cost/valuation at the year-end on 31.3.2012 | As at the beginning of the year 2011-12 | During the year 2011-12 | On Deductions during the 2011-12 | Total up to the year end on 31.03.2012 | As on 31.03.2012 | As on 31.03.2011 | |
| TOTAL B/F | | 218,319,983.16 | 47,852,194.00 | - | 266,172,177.16 | 10,968,683.56 | 3,971,066.00 | - | 14,939,749.56 | 251,232,427.60 | 207,351,299.60 | |
| Air conditioner | (by Store) 4.75% | 1,654,994.76 | 29,050.00 | 530,869.37 | 1,153,175.39 | 246,536.84 | 54,776.00 | 151,298.00 | 150,014.84 | 1,003,160.55 | 1,408,457.92 | |
| | (by Library) 4.75% | 690,494.70 | 0.00 | 0.00 | 690,494.70 | 196,790.50 | 32,799.00 | 0.00 | 229,589.50 | 460,905.20 | 493,704.20 | |
| | (by Ayurveda) 4.75% | 73,051.00 | 0.00 | 0.00 | 73,051.00 | 20,819.84 | 3,470.00 | 0.00 | 24,289.84 | 48,761.16 | 52,231.16 | |
| Zerox/Duplication Machine | (by Store) 4.75% | 839,183.00 | - | 207,500.00 | 631,683.00 | 97,748.12 | 30,005.00 | 49,281.00 | 78,472.12 | 553,210.88 | 741,434.88 | |
| | (by Library) 4.75% | 2,928,659.19 | 0.00 | 217,205.40 | 2,711,453.79 | 816,051.45 | 128,794.00 | 61,904.00 | 882,941.45 | 1,828,512.34 | 2,112,607.74 | |
| | (by Ayurved) 4.75% | 78,387.00 | - | 0.00 | 78,387.00 | 7,446.00 | 3,723.00 | 0.00 | 11,169.00 | 67,218.00 | 70,941.00 | |
| Type writer | (by Store) 4.75% | 31,560.96 | 0.00 | 0.00 | 31,560.96 | 8,994.20 | 1,499.00 | 0.00 | 10,493.20 | 21,067.76 | 22,566.76 | |
| | (by Library) 4.75% | 37,192.87 | 0.00 | 0.00 | 37,192.87 | 10,600.34 | 1,767.00 | 0.00 | 12,367.34 | 24,825.53 | 26,592.53 | |
| Fax/Telephone & Intercom | (by Store) 4.75% | 551,207.50 | 0.00 | 8,195.00 | 543,012.50 | 156,333.00 | 25,793.00 | 2,336.00 | 179,790.00 | 363,222.50 | 394,874.50 | |
| | (by Library) 4.75% | 42,954.00 | 0.00 | 0.00 | 42,954.00 | 12,241.00 | 2,040.00 | 0.00 | 14,281.00 | 28,673.00 | 30,713.00 | |
| | (by Director Office) 4.75% | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 6,727.00 | 1,173.00 | 0.00 | 7,900.00 | 16,800.00 | 17,973.00 | |
| | (by Dictionary) 4.75% | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 314.00 | 52.00 | 0.00 | 366.00 | 734.00 | 786.00 | |
| Computer | (by Ayurved) 4.75% | 186,255.67 | 183,637.00 | 0.00 | 369,892.67 | 43,062.00 | 8,847.00 | 0.00 | 51,909.00 | 317,983.67 | 143,193.67 | |
| | (by Store) 4.75% | 7,012,684.71 | 3,514,842.37 | 28,549.00 | 10,498,978.08 | 430,342.43 | 498,701.00 | 8,136.00 | 920,907.43 | 9,578,070.65 | 6,582,342.28 | |
| | (by Library) 4.75% | 6,157,864.94 | 0.00 | 829,254.00 | 5,328,610.94 | 1,812,366.00 | 253,109.00 | 236,337.00 | 1,829,138.00 | 3,499,472.94 | 4,345,498.94 | |
| | (by Dictionary) 4.75% | 2,664,303.00 | 0.00 | 40,560.00 | 2,623,743.00 | 735,876.50 | 124,628.00 | 11,560.00 | 848,944.50 | 1,774,798.50 | 1,928,426.50 | |
| | (by Publication) 4.75% | 1,135,889.50 | 0.00 | - | 1,135,889.50 | 893,052.00 | 53,955.00 | 0.00 | 947,007.00 | 188,882.50 | 242,837.50 | |
| | (by Research Unit) 4.75% | 1,558,798.00 | 0.00 | 0.00 | 1,558,798.00 | 444,213.00 | 74,043.00 | 0.00 | 518,256.00 | 1,040,542.00 | 1,114,585.00 | |
| T.V./V.C.R./Slide Projecto | (by Store) 4.75% | 186,390.00 | 131,400.00 | 52,270.00 | 265,520.00 | 53,123.00 | 12,612.00 | 14,897.00 | 50,838.00 | 214,682.00 | 133,267.00 | |
| | (by Library) 4.75% | 540,589.00 | 0.00 | 0.00 | 540,589.00 | 154,065.00 | 25,678.00 | 0.00 | 179,743.00 | 360,846.00 | 386,524.00 | |
| Cycle & Trolley | (by Store) 7.07% | 4,671.60 | 0.00 | 1,350.00 | 3,321.60 | 1,981.50 | 235.00 | 573.00 | 1,643.50 | 1,678.10 | 2,690.10 | |
| Generator | (by Store) 4.75% | 476,290.00 | 0.00 | 0.00 | 476,290.00 | 135,741.00 | 22,624.00 | 0.00 | 158,365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | (by Library) 4.75% | 166,891.88 | 0.00 | 0.00 | 166,891.88 | 47,563.00 | 7,927.00 | 0.00 | 55,490.00 | 111,401.88 | 119,328.88 | |
| | (by Dictionary) 4.75% | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 8,693.00 | 1,449.00 | 0.00 | 10,142.00 | 20,358.00 | 21,807.00 | |
| Binder Machine | (by Library) 4.75% | 60,213.00 | 0.00 | 0.00 | 60,213.00 | 17,163.00 | 2,860.00 | 0.00 | 20,023.00 | 40,190.00 | 43,050.00 | |
| Audio Visual | (by Store) 4.75% | 2,713,757.91 | 517,032.80 | 0.00 | 3,230,790.71 | 388,061.15 | 153,463.00 | 0.00 | 541,524.15 | 2,689,266.56 | 2,325,696.76 | |
| | (by Library) 4.75% | 661,735.00 | 0.00 | 0.00 | 661,735.00 | 179,571.00 | 31,432.00 | 0.00 | 211,003.00 | 450,732.00 | 482,168.00 | |
| Microfilm Fishe | (by Library) 4.75% | 254,741.00 | 0.00 | 0.00 | 254,741.00 | 72,603.00 | 12,100.00 | 0.00 | 84,703.00 | 170,038.00 | 182,138.00 | |
| Microfilm Roll | (by Library) 4.75% | 541,320.00 | 0.00 | 0.00 | 541,320.00 | 154,277.00 | 25,713.00 | 0.00 | 179,990.00 | 361,330.00 | 387,043.00 | |
| TOTAL C/F | | 249,626,363.35 | 52,228,156.17 | 1,915,752.77 | 299,938,766.75 | 18,121,039.43 | 5,566,333.00 | 536,322.00 | 23,151,050.43 | 276,787,716.32 | 231,505,323.92 | |

| | | GROSS BLOCK | | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|-------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| PARTICULARS | | Rate (SLM) | Cost/valuation As at beginning of the year on 1.4.2011 | Additions during the year 2011-12 | Deductions during the year 2011-12 | Cost/valuation at the year-end on 31.3.2012 | As at the beginning of the year 2011-12 | During the year 2011-12 | On Deductions during the 2011-12 | Total up to the year-end on 31.03.2012 | As on 31.03.2012 | As on 31.03.2011 |
| 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 99.60 | | | | | | | | | | | | |
| 57.92 | | | | | | | | | | | | |
| 04.20 | | | | | | | | | | | | |
| 31.16 | | | | | | | | | | | | |
| 34.88 | | | | | | | | | | | | |
| 07.74 | | | | | | | | | | | | |
| 41.00 | | | | | | | | | | | | |
| 66.76 | | | | | | | | | | | | |
| 92.53 | | | | | | | | | | | | |
| 74.50 | | | | | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | | | | | |
| 73.00 | | | | | | | | | | | | |
| 786.00 | | | | | | | | | | | | |
| 193.67 | | | | | | | | | | | | |
| 342.28 | | | | | | | | | | | | |
| 498.94 | | | | | | | | | | | | |
| 426.50 | | | | | | | | | | | | |
| 337.50 | | | | | | | | | | | | |
| 585.00 | | | | | | | | | | | | |
| 267.00 | | | | | | | | | | | | |
| 524.00 | | | | | | | | | | | | |
| 690.10 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 328.88 | | | | | | | | | | | | |
| 807.00 | | | | | | | | | | | | |
| 050.00 | | | | | | | | | | | | |
| 696.76 | | | | | | | | | | | | |
| 168.00 | | | | | | | | | | | | |
| 138.00 | | | | | | | | | | | | |
| 043.00 | | | | | | | | | | | | |
| 323.92 | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL RS. | 316,019,348.33 | 62,617,254.58 | 3,009,499.60 | 375,627,103.31 | 37,350,258.80 | 9,531,549.00 | 946,011.00 | 45,935,796.80 | 329,691,306.51 | 278,669,089.53 |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

SCHEDULE 10- INVESTMENTS - OTHER

| DISCRIPTION | Cost/valuation As at beginning of the year on 31.3.2011 | Additions During the year 2011-12 | Deductions during the year 2011-12 | Cost/valuation at the year-end on 31.3.12 | Current Year 2011-12 | Previous year 2010-11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fixed Deposit (Donation of Prof. K. S. Murty, Prof. A. K. Saran & Preeti Endowment Funds of the University) | 624,413.00 | | | 624,413.00 | 624,413.00 | 624,413.00 |
| Interest on F.D. of Endowment fund | 541,222.00 | 363,536.00 | 0.00 | 904,758.00 | 904,758.00 | 541,222.00 |
| F.D. & balance with Canara Bank (Corpus fund with interest earned) | 74,508,620.00 | 1,202,715.00 | 1,086,060.00 | 74,625,275.00 | 74,625,275.00 | 74,508,620.00 |
| CPF/GPF as per Bank and Investment in KDR/UTI | 50,636,161.00 | 53,595,825.00 | 36,914,487.00 | 67,317,499.00 | 67,317,499.00 | 50,636,161.00 |
| Opening balance of GPF/CPF SB A/C | 1,049,181.80 | 37,575,423.00 | 37,363,388.00 | 1,261,216.80 | 1,261,216.80 | 1,049,181.80 |
| Interest accrued but not received O.B. | 11,249,903.00 | 0.00 | 6,492,724.00 | 4,757,179.00 | 4,757,179.00 | 11,249,903.00 |
| <u>Fixed deposits</u> | | | | | | |
| Fix Deposit of Sowa-Rigpa revolving Fund | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| Interest on revolving fund (Sowa-Rigpa) | 0.00 | 632,621.00 | 0.00 | 632,621.00 | 632,621.00 | 0.00 |
| TOTAL RS. | 138,609,500.80 | 93,970,120.00 | 81,856,659.00 | 150,722,961.80 | 150,722,961.80 | 138,609,500.80 |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2012

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

| DISCRIPTION | | Current Year 2011-12 | | Previous year 2010-11 | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| A. CURRENT ASSETS: | | | | | |
| 1. | Cost of Own Publication: | 7,963,068.02 | | 7,598,107.02 | |
| | Addition during the year | 875,072.00 | | 785,184.00 | |
| | Less: Sale of Own Publication & Deductions | 350,537.00 | 8,487,603.02 | 420,223.00 | 7,963,068.02 |
| 2. | Cash Balance in hand as per O. B. | 15,955.00 | | 20,199.00 | |
| | Add during the year | 6,596.00 | | 15,955.00 | |
| | Adjustment During the year | 15,955.00 | 6,596.00 | 20,199.00 | 15,955.00 |
| 3. | Bank Balances: | | | | |
| a) | Balance with Union Bank as per O. B. | 14,991,932.42 | | 15,005,096.45 | |
| | Add during the year | 11,651,845.61 | | 14,991,932.42 | |
| | Adjustment During the year | 14,991,932.42 | 11,651,845.61 | 15,005,096.45 | 14,991,932.42 |
| b) | Balance with Canara Bank FC1 as per O. B. | 10,451.68 | | 10,551.68 | |
| | Add during the year | 0.00 | | 0.00 | |
| | Adjustment During the year | 832.00 | 9,619.68 | 100.00 | 10,451.68 |
| c) | Balance with Union Bank Sowa-Rigpa CUTS | 499,867.20 | 499,867.20 | | |
| B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS: | | | | | |
| 1. | ADVANCES: | | | | |
| a) | Festival Advance as per O. B. | 171,000.00 | | 166,770.00 | |
| | Add during the year | 221,250.00 | | 177,000.00 | |
| | Adjustment During the year | 175,500.00 | 216,750.00 | 172,770.00 | 171,000.00 |
| b) | Vehicle/Computer Advance to the Staff as per O.B. | 704,140.00 | | 917,470.00 | |
| | Add during the year | 174,000.00 | | 135,240.00 | |
| | Adjustment During the year | 318,740.00 | 559,400.00 | 348,570.00 | 704,140.00 |
| c) | House Building Adv. as per O. B. | 395,500.00 | | 510,280.00 | |
| | Add during the year | 0.00 | | 0.00 | |
| | Adjustment During the year | 114,780.00 | 280,720.00 | 114,780.00 | 395,500.00 |
| d) | Temporary Advance as per O. B. | 131,671.00 | | 131,671.00 | |
| | Add during the year | 300,000.00 | | 0.00 | |
| | Adjustment During the year | 125,391.00 | 306,280.00 | 0.00 | 131,671.00 |
| | Total C/F | | 22,018,681.51 | | 24,383,718.12 |

| DESCRIPTION | | | Current Year 2011-12 | | Previous year 2010-11 | |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | Total B/F | | 22,018,681.51 | | 24,383,718.12 |
| 2. | ADVANCES TO: | | | | | |
| a) | C. & D.S.U.P. Jalnigam as per O. B. | | 0.00 | | 1,425,416.00 | |
| | Add during the year | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Adjustment During the year | | 0.00 | - | 1,425,416.00 | 0.00 |
| b) | HSWCL as per O. B. | 11,550,000.00 | | | 12,600,000.00 | |
| | Add during the year | 7,252,243.00 | | | 6,450,000.00 | |
| | Adjustment During the year | 11,550,000.00 | 7,252,243.00 | | 7,500,000.00 | 11,550,000.00 |
| c) | Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam | 17,508,213.00 | | | 17,508,213.00 | |
| | Add during the year | 0.00 | | | 0.00 | |
| | Adjustment During the year | 0.00 | 17,508,213.00 | | 0.00 | 17,508,213.00 |
| 3. | SECURITY DEPOSITS: | | | | | |
| a) | Telephone Deptt | 22,410.00 | | | 22,410.00 | |
| b) | UEDD III/Vth | 186,634.00 | | | 186,634.00 | |
| c) | Nagar-mahapalika | 25.00 | | | 25.00 | |
| d) | Institute's Bank Guarantee | 8,000.00 | | | 8,000.00 | 217,069.00 |
| | Incash of Bank Guarantee during the year 2011-12 | (-) 8000.00 | 209,069.00 | | | |
| | TOTAL Rs. | | 46,988,206.51 | | | 53,659,000.12 |

**CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES,
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD/YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2012

(Amount-Rs.)

| SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES | | Current Year 2011-12 | | Previous Year 2010-11 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1) Income from Sales | | | | |
| 2) Income from Services | | | | |
| (a) Interest on House Building loans | 75,366.00 | | | |
| (b) Electricity recovery | 493,076.00 | | 465,247.00 | |
| (c) Licence fees | 102,153.00 | | 95,059.00 | |
| (d) Interest on Scooter loans | 60,455.00 | | 92,890.00 | |
| (e) Income from Examination | 118,000.00 | | 117,300.00 | |
| Total | | 849,050.00 | | 770,496.00 |
| SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES | | | | |
| 1) Grant from Ministry of Culture, Deptt. of Culture, New Delhi | | | | |
| (a) Under Non-Plan | 98,389,670.00 | | 93,594,000.00 | |
| Unspent Balance of Previous year 2010-11 | 3,330.64 | | 4,06,170.27 | |
| University Income/Recoveries of the year 2011-12 (Remaining) | 1,405,315.00 | | 12,319,693.00 | |
| TOTAL GRANT | 99,798,315.64 | | 106,319,863.27 | |
| Less Capital Expenditure | (-) 3,95,250.00 | | (-) 11,524,623.00 | |
| Less unspent balance of the year 2011-12 | (-) 12,007.73 | 99,391,057.91 | (-) 3,330.64 | 94,791,909.63 |
| (b) Under Plan | 57,997,360.00 | | 57,991,642.00 | |
| Unspent Balance of Previous year 2010-11 | 2,640.18 | | 8,358.18 | |
| TOTAL GRANT | 58,000,000.18 | | 58,000,000.18 | |
| Less Capital Expenditure | (-) 40,699,866.92 | | (-) 38,449,386.04 | |
| Less unspent balance of the year 2011-12 | (-) 147.53 | 17,299,985.73 | (-) 2,640.18 | 19,547,973.96 |
| (c) NER Project | - | | 4,818,000.00 | |
| Unspent Balance of Previous year 2010-11 | 3,803,958.00 | | 0.00 | |
| TOTAL GRANT | 3,803,958.00 | | 4,818,000.00 | |
| Less Capital Expenditure | - | | 459,500.00 | |
| Less unspent balance of the year 2011-12 | (-) 2844563.00 | 959,395.00 | 3,803,958.00 | 554,542.00 |
| Grant received during the year under UGC Merged schemes | 7,300,000.00 | | 0.00 | |
| Unspent Balance of Previous year 2010-11 | 9,751,761.00 | | 13,326,245.00 | |
| TOTAL GRANT | 17,051,761.00 | | 13,326,245.00 | |
| Less Capital Expenditure | (-) 85,08,719.00 | | (-) 1,012,500.00 | |
| Less unspent balance of the year 2011-12 | (-) 75,77,568.00 | 965,474.00 | (-) 9,751,761.00 | 2,561,984.00 |
| Grant received during the year under UGC Development schemes | 9,900,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| Unspent balance of UGC (Previous year) | 27,536.00 | | (-) 5,161.00 | |
| TOTAL GRANT | 9,927,536.00 | | 9,994,839.00 | |
| Less Capital exp. | (-) 9,644,569.66 | | (-) 8,348,953.39 | |
| Unspent Balance of UGC during the year | (-) 1,02,919.75 | 180,046.59 | (-) 27,536.00 | 1,618,349.61 |
| Fund from UGC Project for Dr. D. R. Singh | - | | 170,000.00 | 170,000.00 |
| Fund received from the Office of the H.H. Dalai Lama | 375,000.00 | | 1,309,450.00 | |
| Unspent Balance of the year 2010-11 | 79,450.00 | 454,450.00 | (-) 79,450.00 | 1,230,000.00 |
| Total C/F | | 119,250,409.23 | | 120,474,759.20 |

| | | Current Year 11-12 | | Prverious Year 10-11 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Total B/F | | 119,250,409.23 | | 120,474,759.20 |
| Fund of Smith /Tasmania Collage (Prof. J. Garfield) | 400,000.00 | | 496,633.60 | |
| Unspent Balance of the year 2010-11 | 12,284.60 | | (-) 12,284.60 | 484,349.00 |
| Unspent Balance of the year 2011-12 | (-) 37,905.60 | 374,379.00 | | |
| Grant from National Medicinal Plant Board.N.D. | 0.00 | | 500,000.00 | |
| Unspent Balance of the year 2010-11 | 0.00 | 0.00 | (-) 500,000.00 | 0.00 |
| Income from Interest of Endowment fund | - | | 45,997.00 | |
| Unspent balance of previous year 2009-10 | 40,408.00 | | 32,497.00 | |
| Unspent balance of the year 2010-11 | (-) 1,248.00 | 39,160.00 | (-) 40,408.00 | 38,086.00 |
| B.Ed. Fund from Dharmashala | | 160,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| Fund received from Tasmania University | | - | 449,275.00 | 449,275.00 |
| Grant from American Institute of Buddhist Studies | | - | 903,250.00 | 903,250.00 |
| Interest of Carpus Kosh | 874,557.00 | | 1,536,677.00 | |
| Unspent balance of previous year 2010-11 | 212,064.00 | | 1,180,487.00 | |
| Less Unspent balance of the year 2010-11 | (-) 561.00 | 1,086,060.00 | (-) 212,064.00 | 2,505,100.00 |
| GRANT TOTAL | | 120,910,008.23 | | 125,304,819.20 |
| SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS | | | | |
| (1) Interest from Bank on SB Account | | 1,433,863.00 | 1,076,454.00 | |
| (2) Interest on F.D. of Bank Guarantee | | 52,884.00 | 0.00 | 1,076,454.00 |
| Total | | 1,486,747.00 | | 1,076,454.00 |
| SCHEDULE 16 - INCOME FROM SALE OF BOOK | | 0 | | |
| SCHEDULE 18 - OTHER INCOME | | | | |
| 1) Misce. Income | | 346,473.00 | 530,789.00 | 530,789.00 |
| Total | | 346,473.00 | | 530,789.00 |
| SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES | | | | |
| (A) Salaries & Allowances | | | | |
| Pay & Allowances | 67,539,392.00 | | 62,876,019.00 | |
| Pension & Gratuity | 10,421,295.00 | | 9,080,117.00 | |
| L.T.C./H.T.C. | 257,886.00 | | 216,367.00 | |
| Medical re-imbursement | 531,096.00 | | 589,125.00 | |
| Children Education Allowance | 443,401.00 | | 341,258.00 | |
| Liveries | - | | 44,355.00 | |
| Compensatory Allowance | 7,329.00 | | 16,983.00 | |
| Filling of Vancant Posts | 4,345,213.00 | 83,545,612.00 | 3,678,197.00 | 76,842,421.00 |
| Total | | 83,545,612.00 | | 76,842,421.00 |
| SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES | | | | |
| (B) Maintenance | | | | |
| Guest faculty against vacant post | 3,838,323.00 | | 3,437,803.00 | |
| Professional Training & Visiting | 240,000.00 | | 14,525.00 | |
| Wages & Garden | 925,117.00 | | 1,500,557.00 | |
| B.Ed. Department Expenditure | 456,326.00 | | 747,422.00 | |
| Scholarship | 2,348,125.00 | | 2,275,598.00 | |
| Educational Tour A/C | 172,009.00 | | 198,997.00 | |
| Purchase of Medicine | 502,711.00 | | 315,726.00 | |
| Maintenance of Gen. set./Lib./Equipment | 681,159.00 | | 1,107,894.00 | |
| Repair & Maintenance of building | 84,023.00 | 9,247,793.00 | 181,065.00 | 9,779,587.00 |
| Total C/F | | 9,247,793.00 | | 9,779,587.00 |

| | | Current Year 11-12 | Prervious Year 10-11 |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Total C/F | | 9,247,793.00 | 9,779,587.00 |
| Staff Vehicles-Maintenance & Fuel | 281,090.00 | | 204,229.00 |
| Diesel for Gen. Set. | 2,699,732.00 | | 3,545,048.00 |
| Purchase of Electrical goods | 191,647.00 | | 333,451.00 |
| Electric Expenditure | 2,106,622.00 | | 1,833,836.00 |
| Telephone Exp. | 102,973.00 | | 152,924.00 |
| Examination | 809,228.00 | | 806,628.00 |
| Study tour of Aurvedic Students | - | | 115,000.00 |
| Maintenance & Infrastrutural Development Of Sowa Rig | 675,537.00 | 6,866,829.00 | 643,430.00 |
| (C) Contingencies | | | |
| Traveling Exp. | 427,326.00 | | 719,672.00 |
| Lecture Series | 23,710.00 | | 64,413.00 |
| Audit Fees/Printing | 281,898.00 | | 101,481.00 |
| Cultural Programme | 12,320.00 | | 26,064.00 |
| Membership AIU/ACU/IIC | 78,107.00 | | 208,801.65 |
| Cultural Exchange Programme | 158,726.00 | | 183,534.00 |
| Stationary & Printing A/C | 397,113.00 | | 382,340.00 |
| Postage | 38,158.00 | | 47,099.00 |
| Misc., Cosumable, VIP Visit | 145,367.91 | | 201,286.98 |
| Advertiesement | 389,367.00 | | 586,818.00 |
| Annual Function/Convocation | 246540.00 | | 0.00 |
| Games & Sports | 77,235.00 | | 132,610.00 |
| Legal Expenditure | 11,210.00 | | 40,357.00 |
| Summer/Winter Camping | 36,607.00 | | 107,367.00 |
| Rents & Taxes | 89,409.00 | | 89,409.00 |
| Valuable Secured Loan Interest | - | 2,413,093.91 | 21,842.00 |
| Total C/F | | 18,527,715.91 | 20,327,227.63 |

| PLAN | Total B/F | Current Year 11-12 | | Previous Year 10-11 | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| | | | 18,527,715.91 | | 20,327,227.63 |
| Dictionary Unit | 484,447.00 | | | 327,285.00 | |
| Development of Library | 2,168,782.60 | | | 2,974,460.70 | |
| Rare Buddhist Texts Research Unit | 338,819.00 | | | 425,071.00 | |
| Restoration & Translation Unit | 254,333.00 | | | 528,609.00 | |
| Other Plan Activities | 969,543.00 | | | 966,723.00 | |
| Furniture and Equipments (Maintenance) | 23,046.13 | | | 3,402,030.93 | |
| Promotion of Intellectual contact Exchange of scholars, Conferences & Seminars | 566,079.00 | | | 3,841,755.00 | |
| Unassigned amounts | 574,349.00 | | | 922,544.00 | |
| Repair & Maintenance of Building | 7,800,714.00 | | | 3,094,746.00 | |
| Re-editing of Mahayana Project | 284,591.00 | | | 250,101.00 | |
| Establishment of distance education | 101,715.00 | | | 104,750.00 | |
| Establishment of Campus Centre | 3,310,711.00 | | | 1,463,998.33 | |
| H.R. Development Schemes | 422856.00 | 17,299,985.73 | | 0.00 | |
| Plan Post Salary against Vacant Post | - | | | 1,245,900.00 | |
| Project work of Medicinal Plant at Tawang in NER | 959,395.00 | 959,395.00 | | 554,542.00 | 20,102,515.96 |
| Exp. under U.G.C. 11th Plan Development Scheme | | | | | |
| Faculty Improvement Programme | 201,527.00 | | | 50,772.00 | |
| Equipments | 180,046.59 | | | 1,618,349.61 | |
| Instrumentation Maintenance Facility (IMF) | 287,202.00 | | | 2,452,639.00 | |
| T.A. Expenditure | 476,745.00 | | | 58,573.00 | |
| Refund of UGC Fund to Dr. D.R. Singh | - | 1,145,520.59 | | 170,000.00 | 4,350,333.61 |
| Non Budgetary Expenditure | | | | | |
| Expenditure on Seminar by American Institute of Buddhist Studies | - | | | 903,250.00 | |
| B.Ed. Expenditure by Dharmashala Fund | 160,000.00 | | | 450,000.00 | |
| Refund of Fund of Smith Collage Prof. J. Garfield | | | | 484,349.00 | |
| Refund of H.H. Dalai Lama Fund | 454,450.00 | | | 1,230,000.00 | |
| Expenditure of Preeti Endowment Fund Interest | 39,160.00 | | | 38,086.00 | |
| Expenditure of Carpus Interest | 1,086,060.00 | | | 2,505,100.00 | |
| Refund of Fund Tasmania/ Smith collage. | 374,379.00 | 2,114,049.00 | | 449,275.00 | 6,060,060.00 |
| Total Rs. | | 40,046,666.23 | | | 50,840,137.20 |
| Depreciation charged (as per schedule 8) | 8,585,538.00 | 8,585,538.00 | | 7,143,126.65 | 7,143,126.65 |

CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI

RECEIPT AND PAYMENT A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2012

RECEIPT

PAYMENT

| PARTICULARS | YEAR 2011-12 | | YEAR 2010-11 | | PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
| | | AMOUNT | | AMOUNT | | | AMOUNT |
| OPENING BALANCE | | | | | | | |
| Balance with Canara Bank (FC No.1) | 10,451.68 | | 10,551.68 | | NON-PLAN | | |
| Balance with Union bank of India | 14,991,932.42 | | 15,005,096.45 | | (A) Salaries & Allowances | | |
| Cash in hand | 15,955.00 | 15,018,339.10 | 20,199.00 | 15,035,847.13 | Pay & Allowances | 67,539,392.00 | 62,876,019.00 |
| | | | | | Pension & Gratuity | 10,421,295.00 | 9,080,117.00 |
| | | | | | L.T.C./H.T.C. | 257,886.00 | 216,367.00 |
| | | | | | Medical re-imbursement | 531,096.00 | 589,125.00 |
| | | | | | House Building Advance | - | - |
| | | | | | Children Education Allow. | 443,401.00 | 341,258.00 |
| GRANTS | | | | | Festival Advance | 221,250.00 | 177,000.00 |
| | | | | | Vehicle/Car/Computer advance | 174,000.00 | 135,240.00 |
| Received during the year 2011-12 from the Govt. of India | | | | | Liveries | - | 44,355.00 |
| Ministry of Culture | | | | | Compensatory Allowence | 7,329.00 | 16,983.00 |
| Department of Culture, Shastri New Delhi | | | | | Filling of Vacant Posts | 4,345,213.00 | 3,678,197.00 |
| Under Non-Plan | 98,389,670.00 | | 93,594,000.00 | | (B) Maintenance | | |
| Under Plan | 57,997,360.00 | | 57,991,642.00 | | Guest faculty against vacant post | 3,838,323.00 | 3,437,803.00 |
| Under NER Project | - | 156,387,030.00 | 4,818,000.00 | 156,403,642.00 | Professional Training & Visiting | 240,000.00 | 14,525.00 |
| OTHER RECEIPT | | | | | Wages & Garden | 925,117.00 | 1,500,557.00 |
| Miscellaneous Income | 346,473.00 | | 530,789.00 | | B.Ed. Department Expenditure | 456,326.00 | 747,422.00 |
| Income from Examination | 118,000.00 | | 117,300.00 | | Scholarship | 2,348,125.00 | 2,275,598.00 |
| Income from interest of house | 75,366.00 | | | | Educational Tour A/C | 172,009.00 | 198,997.00 |
| Income from interest on Scooter | 60,455.00 | | 92,890.00 | | Purchase of Medicine | 502,711.00 | 315,726.00 |
| Interest from UBI on SB Account | 1,433,863.00 | | 1,076,454.00 | | Maintenance of Equipment | 681,159.00 | 1,107,894.00 |
| Interest on Martges of F.D. With ADM (F) | 52,884.00 | 2,087,041.00 | 11,196,428.00 | 13,013,861.00 | Repair & Maintenance of building | 84,023.00 | 181,065.00 |
| | | | | | Staff Vehicles-Maintenance & Fuel | 281,090.00 | 204,229.00 |
| | | | | | Diesel for Gen. Set. | 2,699,732.00 | 3,545,048.00 |
| | | | | | Purchase of Electrical goods | 191,647.00 | 333,451.00 |
| | | | | | Electric Expenditure | 2,106,622.00 | 1,833,836.00 |
| | | | | | Telephone Exp. | 102,973.00 | 152,924.00 |
| | | | | | Examination | 809,228.00 | 806,628.00 |
| INCOME FROM SALE | | | | | Study tour of Aurvedic Students | - | 115,000.00 |
| | | | | | Maintenance & Infrastructural | | |
| | | | | | Development of Sowa Rigpa. | 675,537.00 | 643,430.00 |
| Sale of old assets | 296,412.00 | | 46,723.00 | | (C) Contingencies | | |
| Sale of books | 350,537.00 | 646,949.00 | 420,223.00 | 466,946.00 | Traveling Exp. | 427,326.00 | 719,672.00 |
| | | | | | Lecture Series | 23,710.00 | 64,413.00 |
| | | | | | Audit Fees | 281,898.00 | 101,481.00 |
| | | | | | Cultural Programme | 12,320.00 | 26,064.00 |
| | | | | | Membership ACU/AIU/IIC | 78,107.00 | 208,801.65 |
| | | | | | Cultural Exchange Programme | 158,726.00 | 183,534.00 |
| | | | | | Stationary & Printing A/C | 397,113.00 | 382,340.00 |
| Balance C/F | | 174,139,359.10 | | 184,920,296.13 | Balance C/F | 101,434,684.00 | 96,255,099.65 |

| PARTICULARS | YEAR 2011-12 | | YEAR 2010-11 | | PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 |
|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | AMOUNT | | AMOUNT | AMOUNT |
| Balance B/F | | 174,139,359.10 | | 184,920,296.13 | Balance B/F | 101,434,684.00 | 96,255,099.65 |
| RECOVERIES/INCOME FROM SERVICES | | | | | Postage | 38,158.00 | 47,099.00 |
| Festival Advance | 175,500.00 | | 172,770.00 | | Misc., Consumable, VIP Visit | 145,367.91 | 201,286.98 |
| Scooter Advance | 318,740.00 | | 348,570.00 | | Advertisment | 389,367.00 | 586,818.00 |
| House building loan recovery | 114,780.00 | | 114,780.00 | | Annual Function/Convocation | 246,540.00 | - |
| Liecence fees | 102,153.00 | | 95,059.00 | | Games & Sports | 77,235.00 | 132,610.00 |
| Electricity Charges | 493,076.00 | | 465,247.00 | 1,196,426.00 | Legal Expenditure | 11,210.00 | 40,357.00 |
| Adjustment of Previous Advances | 125,391.00 | | | | Summar/Winter Camping | 36,607.00 | 107,367.00 |
| Incash of Mortgage Fix Deposit | 8,000.00 | 1,337,640.00 | | | Rents & Taxes | 89,409.00 | 89,409.00 |
| | | | | | Cash in hand | - | 15,955.00 |
| | | | | | Vluable Secured Loan Interest | - | 21,842.00 |
| | | | | | Purchase of Land from Building interest | - | 11,196,428.00 |
| | | | | | Total (Non-Plan) | 102,468,577.91 | 108,694,271.63 |
| | | | | | PLAN | | |
| | | | | | Dictionary Encyclopedia in Tibetan Sanskrit | 484,447.00 | 327,285.00 |
| | | | | | Development of Library | 3,114,864.65 | 6,469,072.00 |
| | | | | | Publication & Printing | 366,353.00 | 785,184.00 |
| | | | | | Rare Buddhist Texts Research Unit | 374,162.00 | 438,977.00 |
| | | | | | Restoration & Translation Unit | 254,333.00 | 528,609.00 |
| | | | | | Other Plan Activities | 969,543.00 | 966,723.00 |
| | | | | | Furniture & Equipments | 3,456,760.00 | 7,618,519.00 |
| | | | | | Promotion of Intellectual contact, exchange of scholars conferences and seminars | | |
| | | | | | | 566,079.00 | 3,841,755.00 |
| | | | | | Unasign Amount | 574,349.00 | 922,544.00 |
| | | | | | Repair & Maintenance of Building. | 7,800,714.00 | 3,094,746.00 |
| | | | | | Re-editing & Publication Project of Mahayana Sanskrit Series Text | 284,591.00 | 250,101.00 |
| | | | | | Establishlment of Language Lab. | - | - |
| | | | | | Establishment of Distance Education | 101,715.00 | 104,750.00 |
| | | | | | Temporary advace | 300,000.00 | - |
| | | | | | Cash in Hand | 6,596.00 | - |
| | | | | | Total | 18,654,506.65 | 25,348,265.00 |
| Balance C/F | | 175,476,999.10 | | 186,116,722.13 | Balance C/F | 121,123,084.56 | 134,042,536.63 |

| PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 | | PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | AMOUNT | | AMOUNT | | AMOUNT | AMOUNT |
| Balance B/F | | 175,476,999.10 | 186,116,722.13 | Balance B/F | 121,123,084.56 | 134,042,536.63 |
| | | | | (B) NEW SCHEME UNDER 11TH FIVE YEAR PLAN | | |
| | | | | (1) Establishment of Campus Centre | 3,368,053.00 | 1,505,052.00 |
| | | | | (2) Infrastral HR Development (Acedemic Adminstration) | 422,856.00 | - |
| | | | | (3) Plan Posts Salary (Against creation) | - | 1,245,900.00 |
| | | | | Total | 3,790,909.00 | 2,750,952.00 |
| | | | | (C) CAPITAL WORKS/BUILDING PROJECT | | |
| | | | | (1) Construction of Building by HSCL/C&DS | 27,221,097.00 | 18,082,978.00 |
| | | | | (2) Purchase of Land | 244,340.00 | 5,365,165.00 |
| | | | | (3) Cost of 1000 KVS Sub Station | 2,419,000.00 | - |
| | | | | (4) Deposit with HSWCL | 5,670,000.00 | 6,450,000.00 |
| | | | | Total | 35,554,437.00 | 29,898,143.00 |
| | | | | (D) NER PROJECT | | |
| | | | | (1) Project work of medicinal plant in NER | 959,395.00 | 1,014,042.00 |
| | | | | Total | 959,395.00 | 1,014,042.00 |
| GRANTS FROM U.G.C. UNDER 11TH PLAN DEVLP. SCHEMES | | | | EXPENDITURE UNDER 11TH PLAN UGC | | |
| Grants received from U.G.C General development scheme (Books & Equipments) | | | | Books & Journals | 2,316,741.25 | 366,076.00 |
| | | | | Equipments | 7,507,875.00 | 9,601,227.00 |
| | 9,900,000.00 | | 10,000,000.00 | Seminar /Symposium /Conference | | - |
| | | | | Instrumentation Maintenance Facility | 287,202.00 | 2,452,639.00 |
| | | | | T.A.Expenditure | 476,745.00 | 58,573.00 |
| Grant received from U.G.C. Merged scheme | 7,300,000.00 | 17,200,000.00 | | Publication Expenditure | 508,719.00 | - |
| | | | | Faculty Improvement Programme/fellowship | 201,527.00 | 50,772.00 |
| | | | | Facility for Differentaly -abled persons | | 1,012,500.00 |
| | | | | Construction of Women's Hostel | 6,417,757.00 | |
| | | | | Advance for Const. of Women's Hostel to HSCL. | 1,582,243.00 | |
| | | | | Total U.G.C. | 19,298,809.25 | 13,541,787.00 |
| Balance C/F | | 192,676,999.10 | 196,116,722.13 | Balance C/F | 180,726,634.81 | 181,247,460.63 |

| PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 | PARTICULARS | YEAR 2011-12 | YEAR 2010-11 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AMOUNT | AMOUNT | | AMOUNT | AMOUNT |
| Balance B/F | 192,676,999.10 | 196,116,722.13 | | Balance B/F | 180,726,634.81 |
| NON-BUDGETARY RECEIPTS | | | NON-BUDGETORY EXP. | | |
| Adjustment of advance by HSCL | 11,550,000.00 | 7,500,000.00 | Cost of Building by H.S.C.L. | 11,550,000.00 | 7,500,000.00 |
| | | | Expenditure on H.H.the DalaiLama fund for B.Ed. | 160,000.00 | - |
| Adjustment of advance by C & D.S. U.P.Jal Nigam | | 1,425,416.00 | Cost Of Building by C&DS U.P.Jal Nigam.(Omeera) | - | 1,425,416.00 |
| Fund received from H.H. Dalai Lama for B.Ed.Exp. | 160,000.00 | 450,000.00 | Expenditure on H.H.the DalaiLama fund | 454,450.00 | 1,230,000.00 |
| Fund received from Tasmania University | | 449,275.00 | Exp. of Preeti Endowment Fund interest | 39,160.00 | 38,086.00 |
| Fund received from the office of H.H. Dalai Lama | 375,000.00 | 1,309,450.00 | Expenditure of Corpus interest | 1,086,060.00 | 2,505,100.00 |
| Interest on fixed Deposit of Endowment fund | | 45,997.00 | Fund Refund to Tasmania University Team | - | 449,275.00 |
| Interest of Corpus cosh | 874,557.00 | 1,536,677.00 | B.Ed Expenditure by Dharmashala Fund | - | 450,000.00 |
| Donation received from the office of H.H. Dalai Lama | | 4,000,000.00 | Scholarship of Dharmashala Fund | - | |
| Fund received from Smith College Prof. J. Garfield | 400,000.00 | 496,633.60 | Exp. On International Seminar by A.I.B.S. | - | 903,250.00 |
| Fund received from A.I.B.S. for Seminar | | 903,250.00 | Exp. Of Foreign Contribution account No. 1 | 832.00 | 100.00 |
| Grant from N.M.P.B for developing herbal garden. | | 500,000.00 | Fix Deposit of Donation fund. | - | 3,500,000.00 |
| Security deposited by library readers | 14,000.00 | 4,000.00 | Fund Refund to Smith collage (Prof. J.Garfield) | 374,379.00 | 484,349.00 |
| Fund from UGC for Project of Dr. D.R.Singh | | 170,000.00 | Security refund of Library Readers | 3,000.00 | 2,000.00 |
| Fund from Director of Higher Technical Education A.P. | 5,425.00 | | Exp. Of Dr. D.R.Singh's Project of UGC | - | 170,000.00 |
| | | | Balance with Canara Bank C.A.1 (F.C.) | 9,619.68 | 10,451.68 |
| | | | Balance with U.B.I. | 11,651,845.61 | 14,991,932.42 |
| | | | Total N.B. | 25,329,346.29 | 33,659,960.10 |
| Gross Total | 206,055,981.10 | 214,907,420.73 | Gross total | 206,055,981.10 | 214,907,420.73 |

Sd.

(L. K. MISHRA)
In-charge (Accounts)

Sd.
(DR. DEO RAJ SINGH)
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)
Vice Chancellor

CENTRAL UNIVERSITY OF TIBETAN STUDIES
(Deemed University)
SARNATH, VARANASI

RECEIPT AND PAYMENT OF G.P.F/C.P.F. A/C FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2012

RECEIPT

PAYMENT

| PARTICULARS | YEAR 2011-12 AMOUNT | YEAR 2010-11 AMOUNT | PARTICULARS | YEAR 2011-12 AMOUNT | YEAR 2010-11 AMOUNT |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| OPENING BALANCES | | | G.P.F. A/C | | |
| G.P.F. A/C 2,50,961.80 | | 994,736.80 | | | |
| C.P.F. A/C 7,98,220.00 | 1,049,181.80 | 881,445.00 | 1,876,181.80 | Loan & Advances from G.P.F. A/C | 5,692,738.00 |
| | | | | R.D. A/C deduction from G.P.F. A/C | 5,500,000.00 |
| Subscription Deposit in G.P.F. A/C | 10,242,085.00 | | Investment from the fund of GPF in the shape of FD. | 24,393,150.00 | 6,724,200.00 |
| Interest drawn on G.P.F. A/C | 147,447.00 | | 40,765.00 | | |
| Subscription deposited in C.P.F. | 1,265,591.00 | | 1,130,038.00 | S.P.F. A/C | |
| Interest drawn on C.P.F. A/C | 20,035.00 | | 40,724.00 | Loan & Advances from C.P.F. A/C | 1,777,500.00 |
| F.D./R.D. encashed | 25,900,265.00 | | 6,724,200.00 | Investment from the fund of C.P.F.in the shape of FD. | - |
| | | | | Closing Balance with | |
| | | | | G.P.F. A/C 9,54,870.80 | 250,961.80 |
| | | | | C.P.F. A/C 3,06,346.00 | 1,261,216.80 |
| Gross Total Rs. | 38,624,604.80 | | Gross Total Rs. | 38,624,604.80 | 798,220.00 |
| | | | | | 1,049,181.80 |
| | | | | | 18,499,922.80 |

Sd.

(L. K. MISHRA)
In-charge (Accounts)

Sd.

(DR. DEO RAJ SINGH)
Registrar

Sd.

(PROF. NGAWANG SAMTEN)
Vice Chancellor

Schedules forming part of Annual Financial Statements of Central University of Tibetan Studies,

Sarnath, Varanasi for the **year 2011-12**

SCHEDULE 24 – Significant Accounting Policies and Notes on Account

1. Accounting Policies

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention on the accrual basis, unless stated otherwise.

2. The University is broadly following the '**Uniform Format of Accounting**', prescribed for The Central Autonomous Bodies by the Ministry of Finance, Government of India from the financial year 2002-03 for drawing the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and other Schedules.

3. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at net cost after deduction depreciation.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at value stated.

Government grants in the nature of contribution towards capital cost of setting up of projects are treated as Capital/Building Fund.

4. Investments

Long Term Investments are valued at cost.

5. Revenue Recognition

Revenue including Government Grant is accounted for on cash basis. **Interest on G.P.F. /C.P.F. is accounted on accrual basis.**

6. Expenditure

The revenue expenditure is accounted for on cash basis.

7. Depreciation

The depreciation is provided on the Straight Line Method as per the rates specified in schedule XIV under the provision of the Companies Act, 1956.

8. Policy on allocation/apportionment of common expenditure to various activity/profit centres. No common expenditure incurred in the University.

9. Terminal Benefits

1. Gratuity Scheme is applicable as per The Central Government and UGC notification.
2. Leave encashment benefit to the employees has been assessed and paid on actual basis & gratuity/pension liability has been assessed and demanded in the Budget of the University on yearly basis.

10. Government Grants/Subsidies:

1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
2. Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
3. Government grants/subsidies are accounted on realization basis.

2. Notes on Accounts:

Capital Commitments

ESTIMATED value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) is lacs Rs.247.60 lacs (Previous year Rs. 290.58 lacs).

Currents Assets, Loans and advances,

In the opinion of the University, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

2.3 Taxation

In view of the tax exempt status of the University under Income Tax Act 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

2.4 Foreign Currency Transactions

2.4.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

| Amount (Rs.) | Current Year | Previous Year |
|--------------|--------------|---------------|
| NIL | NIL | NIL |

CUTS. Employees' G.P.F. /C.P.F. financial statements of Receipt & Payments are enclosed (actual basis).

CUTS. Employees' G.P.F./C.P.F. financial statements shown in the Balance Sheet on accrual basis.

Sd.
(L. K. MISHRA)
In-charge (Accounts)

Sd.
(DR. DEO RAJ SINGH)
Registrar

Sd.
(PROF. NGAWANG SAMTEN)
Vice Chancellor

नोट:-- “प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

हमने केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ और भुगतान खातों की महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) एवं सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत स्थापित केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के नियम-45 के अन्तर्गत – लेखापरीक्षा सम्पन्न की। यह लेखा परीक्षा वर्ष 2013-14 तक के लिये सौंपी गई है। इन वित्तीय वक्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन जिम्मेदार है, हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करने की है।

2. प्रस्तुत पृथक् लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में – लेखा मानकों, प्रदर्शन पहलुओं और सर्वोत्तम प्रचलित अभ्यास आदि के आधार पर खातों की व्यवस्था एवं वर्गीकरण के सम्बन्ध में – नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी समाहित है। वित्तीय लेनदेन से सम्बन्धित कानून, नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) के अनुपालन तथा कार्य-निष्पादन दक्षता आदि पक्षों पर, यदि कोई है, निरीक्षण प्रतिवेदन/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन द्वारा अलग से रिपोर्ट किये जाएंगे।
3. हमने आम तौर पर भारत में स्वीकार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है। इस मानक के अनुसार हमें लेखापरीक्षा योजनाबद्ध तरीके से इस आशय से करना होता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय वक्तव्य तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जाँच में, राशि और वित्तीय वक्तव्यों के प्रकटीकरण से सम्बन्धित सबूतों का परीक्षण शामिल है। लेखापरीक्षा में, विश्वविद्यालय में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धान्तों तथा प्रबन्धन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण व्यय अनुमानों का आकलन, वित्तीय वक्तव्यों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी इस राय के समर्थन में उचित आधार प्रदान करेगी है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - I. हमने अपने जानकारी और विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सारी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए।
 - II. प्रस्तुत प्रतिवेदन से सम्बन्धित तुलनपत्र, आय एवं व्यय/प्राप्तियाँ और भुगतान खातों के प्रारूप वित्त मंत्रमालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किये गये हैं।

- III. हमारी राय में, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी के खाता-बही और अन्य सम्बन्धित अभिलेख – जिनका हमने निरीक्षण किया है – विश्वविद्यालय नियमावली के नियम 45 के अन्तर्गत अनुरक्षित है।
- IV. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

अ. तुलनपत्रः

अचल सम्पत्ति (अनुसूची-8)

अ.1 विश्वविद्यालय ने रु. 24,19,000.00 की धनराशि अचल सम्पत्ति के रूप में दर्शाया है जो 1000 के.वी. सब स्टेशन पर आंशिक भुगतान था, जिसे अचल सम्पत्ति संयन्त्र मशीनरी और उपकरणों पर दिखाते हुए वर्ष 2011-12 में रु. 1.15 लाख ह्रास चार्ज किया गया है, जबकि मशीनरी अभी स्थापित नहीं है। उक्त संयन्त्र पर आंशिक भुगतान को “कार्य प्रगति” मद में दिखाया जाना चाहिये और इस पर ह्रास भी चार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। जिसके कारण अचल सम्पत्ति रु. 23.04 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा रु. 24.19 लाख से “कार्य प्रगति” मद कम दिखाते हुए ह्रास भी रु. 1.15 लाख अधिक दर्शाया गया।

अ.2 वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 2,44,340.00 की धनराशि का व्यय बाउण्ड्री वाल के निर्माण पर न दिखाते हुए “भूमि” मद (अनुसूची-8) में दर्शाया गया है। बाउण्ड्री वाल निर्माण व्यय को “निर्माण/बाउण्ड्री वाल विस्तार” में दिखाना चाहिए था, जिसके कारण “भूमि” मद रु. 2,44,340.00 से अधिक व निर्माण/बाउण्ड्री वाल विस्तार मद कम दर्शाया गया।

अ.3 वर्ष 2011-12 में भवन की लागत एच.एस.डब्ल्यू.सी.एल. में रु. 4,51,88,854.00 जोड़कर दर्शाया गया है जबकि उक्त निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं है, जिसे “निर्माण कार्य प्रगति” मद में दर्शाया जाना था, जिसके कारण भवन मद रु. 4,51,88,854.00 से अधिक व “निर्माण कार्य प्रगति” मद उतनी ही धनराशि से कम दर्शाया गया।

इसके अलावा रु. 14,07,158.00 का मूल्य ह्रास भी भवन पर चार्ज किया गया है, जिसके कारण ह्रास अधिक चार्ज होते हुये अचल सम्पत्ति को रु. 14,07,158.00 से कम दर्शाया गया।

ब. प्राप्तियाँ व भुगतान खाता

ब.1 मार्च 2012 में प्राप्ति व भुगतान मद में अनुदान रु. 2,23,93,000.00 की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें रु. 1,73,93,000.00 की धनराशि वास्तव में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से 3-04-2012 को प्राप्त थी, जिसके कारण प्राप्ति रु. 1,73,93,000.00 की धनराशि अधिक दर्शायी गई थी।

स. सामान्य

स.1 वर्ष 2011-12 में विश्वविद्यालय के सोवा-रिग्पा विभाग का प्राप्ति भुगतान व आय-व्यय को वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया, जैसा कि विक्रय/प्राप्ति धनराशि रु. 5.62 लाख व भुगतान/व्यय की धनराशि रु. 3.47 लाख को नहीं दर्शाया गया।

स.2 विश्वविद्यालय का वार्षिक वित्तीय लेखा आंशिक रूप से अर्जित व आंशिक रूप से नगदी आधार पर तैयार किया गया है।

द. अनुदान सहायता

वर्ष 2011-12 में विश्वविद्यालय मुख्यतः भारत सरकार के संस्कृति मन्त्रालय द्वारा अनुदानित है। विश्वविद्यालय ने कुल रु. 1735.87 लाख [योजनान्तर्गत रु. 579.97 लाख, योजनेतर रु. 983.90 लाख यू.जी.सी. (जनरल डेवलपमेंट) रु. 99.00 लाख, यू.जी.सी. मर्ज स्कीम रु. 73.00 लाख] का अनुदान प्राप्त किया था। विश्वविद्यालय के पास विगत वर्ष का अप्रयुक्त अनुदान की प्रारम्भिक शेष रु. 135.89 लाख और अन्य आय रु. 40.88 लाख (मार्च 2012 में प्राप्त अनुदान रु. 223.93 लाख) था।

विश्वविद्यालय ने रु. 1807.27 लाख का उपभोग [योजनान्तर्गत रु. 580.00 लाख, योजनेतर रु. 1024.69 लाख आय व वसूली के साथ, यू.जी.सी. (ज. डे. + मर्ज स्कीम) रु. 192.99 लाख, एन.ई.आर. रु. 9.59 लाख] किया और अनुदान की शेष धनराशि रु. 105.37 लाख अवशेष के रूप में थी।

- v. विगत अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के विषय वस्तु के सन्दर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट एवं आय व व्यय खाता/प्राप्तियाँ व भुगतान खाता जो इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित है, लेखा पुस्तकों के मिलान में है।
- vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचनाओं एवं हमें प्रदान किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय कथनों को लेखांकन नीतियों एवं लेखों पर टिप्पणियों एवं उपरोक्त के ऊपर महत्वपूर्ण विषय वस्तु के मामलों के सन्दर्भ में एवं अन्य मामले संलग्नकों के अन्तर्गत, जो इस रिपोर्ट से सम्बन्धित है, एक सत्य एवं उचित विचार है जो भारत में सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त के अनुरूप है।

अ. 31.03.2012 को केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के बैलेंस शीट के सम्बन्ध में, और

ब. आय एवं व्यय के आधिक्य के सम्बन्ध में, उक्त वर्ष की समाप्ति की तिथि के लिये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये और की ओर से

स्थान: इलाहाबाद

दिनांक: 28.09.2012

हस्ताक्षर अस्पष्ट
प्रधान निदेशक सम्प्रेक्षा
(केन्द्रीय), लखनऊ

अनुलग्नक

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली:

वर्ष 2011-12 के दौरान विश्वविद्यालय में कोई आन्तरिक लेखा परीक्षा इकाई अस्तित्व में नहीं है, जबकि आन्तरिक लेखा परीक्षा का कार्य एक चार्टड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा वर्ष 2011-12 का सम्पादित किया गया।

(2) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त व कार्यात्मक औपचारिकताओं के रूप में उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव, सम्पत्ति अधिकारी, वित्त प्रभारी और उनके कर्मचारियों द्वारा किया गया।

(3) अचल सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था:

विश्वविद्यालय में केन्द्रीकृत परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं है। अचल सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन मार्च 2011 तक किया गया।

(4) सूची का भौतिक सत्यापन:

सूची का भौतिक सत्यापन मार्च 2011 तक ही आयोजित किया गया।

(5) सांविधिक देय राशि का भुगतान में नियमितता:

विश्वविद्यालय के खिलाफ कोई वैधानिक बकाया नहीं था।

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

| | | सूची | (धनराशि) | (धनराशि) |
|------------------------------------------|----|----------------|------------|----------------|
| | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 |
| पूँजीगत निधि व दायित्व | | | | |
| मणिबन्ध/पूँजीगत निधि | 1 | 75,867,515.68 | | 74,519,071.68 |
| संचित और अवशेष | 2 | 364,518,180.53 | | 317,325,705.55 |
| चिह्नित/अक्षयनिधि | 3 | 13,611,383.81 | | 16,099,067.42 |
| सुरक्षित ऋण व लेनदारियाँ | 4 | 0.00 | | 0.00 |
| असुरक्षित ऋण व लेनदारियाँ | 5 | 0.00 | | 0.00 |
| भुगतान योग्य सम्मानीय दायित्व | 6 | 0.00 | | 0.00 |
| वर्तमान दायित्व और विविध देनदारियाँ | 7 | 73,405,394.80 | | 62,993,745.80 |
| योग | | 527,402,474.82 | | 470,937,590.45 |
| सम्पत्तियाँ | | | | |
| स्थाई सम्पत्तियाँ (हास के बाद) | 8 | 329,691,306.51 | | 278,669,089.53 |
| चिह्नित निधियों का विनियोग | 9 | 0.00 | | 0.00 |
| अन्य विनियोग | 10 | 150,722,961.80 | | 138,609,500.80 |
| वर्तमान सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम इत्यादि | 11 | 46,988,206.51 | | 53,659,000.12 |
| विविध व्यय | | | | |
| महत्वपूर्ण एकाउन्टिंग कार्य नीति | 24 | 0.00 | | 0.00 |
| विविध दायित्व व वित्तीय टिप्पणियाँ | 25 | 0.00 | | 0.00 |
| योग | | 527,402,474.82 | | 470,937,590.45 |

ह.अ.

(लवलेश कुमार मिश्र)
कार्यकारी अनु.अ. (वित्त)

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)
कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आय तथा व्यय का विवरण

| आय | सूची | वर्ष 2011-12 (धनराशि) | वर्ष 2010-11 (धनराशि) |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|
| विक्री से प्राप्त आय | 12 | 849,050.00 | 770,496.00 |
| अनुदान/सब्सिडी | 13 | 120,910,008.23 | 125,304,819.20 |
| फीस/चंदा | 14 | 0 | 0.00 |
| विनियोग से प्राप्त आय | 15 | 1,486,747.00 | 1,076,454.00 |
| रोयलटी व प्रस्तकों के प्रकाशन से आय | 16 | 0.00 | 0.00 |
| अर्जित व्याज | 17 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आय | 18 | 346,473.00 | 530,789.00 |
| तैयार सामान के स्टॉक में बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी | 19 | 0.00 | 0.00 |
| | योग (अ) | 123,592,278.23 | 127,682,558.20 |
| व्यय | | | |
| स्थापन्न व्यय | 20 | 83,545,612.00 | 76,842,421.00 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय | 21 | 40,046,666.23 | 50,840,137.20 |
| अनुदान पर किया गया व्यय | 22 | 0.00 | 0.00 |
| व्याज भुगतान | 23 | 0.00 | 0.00 |
| सम्पत्तियों का ह्रास (सूची 8 के अनुसार) | | 8,585,538.00 | 7,143,126.65 |
| | योग (ब) | 132,177,816.23 | 134,825,684.85 |
| व्यय का आय पर आधिक्य (अ-ब) (ब-अ) | | (8,585,538.00) | (7,143,126.65) |
| विशेष संचित हेतु हस्तान्तरण | | 0.00 | 0.00 |
| सामान्य संचय से हस्तान्तरण | | 0.00 | 0.00 |
| योग अधिक आय/अधिक व्यय पूँजीगत व्यय हेतु | | 0.00 | 0.00 |
| विभिन्न सैद्धान्तिक एकाउन्टिंग नीति | 24 | 0.00 | 0.00 |
| खातों पर अनुसांगिक दायित्व और टिप्पणियाँ | 25 | 0.00 | 0.00 |

ह.अ.

(लवलेश कुमार मिश्र)
 कार्यकारी अनु.अ. (वित)

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)
 कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)
 कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

| | | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| संची 1 - पूँजीगत/मणिबन्ध निधि | | | |
| विगत वर्ष का शेष (दान ₹.63,654,348.68 और व्याज ₹.10,854,271.32) | | 74,519,071.68 | 62,576,675.68 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 116,655.00 | 11,942,496.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 832.00 | 74,634,894.68 |
| सोवा-रिगपा विभाग का रिवॉल्विंग फण्ड | | 600,000.00 | 0.00 |
| रिवॉल्विंग फण्ड पर प्राप्त व्याज | | 632,621.00 | 0.00 |
| योग | | 75,867,515.68 | 74,519,071.68 |
| संची 2 - संचित व अवशेष | | | |
| (क) पूँजीगत संचय (भूमि) विगत वर्ष का शेष | | 30,450,748.84 | 13,889,155.84 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 244,340.00 | 16,561,593.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 0.00 | 30,695,088.84 |
| (ख) पूँजीगत संचय (भवननिधि) विगत वर्ष का शेष | | 175,480,879.32 | 147,459,985.32 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 45,188,854.00 | 28,020,894.00 |
| घटाया: अन्य सम्पत्ति से धनराशि | | 430,000.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 0.00 | 221,099,733.32 |
| (ग) पूँजीगत संचय (वेस्ट वाटर सिस्टम) विगत वर्ष का शेष | | 6,464,700.00 | 6,464,700.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ (भूल सुधार) | | 200.00 | 0.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 0.00 | 6,464,900.00 |
| (घ) पूँजीगत संचय (भूमिगत केबिल) विगत वर्ष का शेष | | 3,298,000.00 | 3,298,000.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 0.00 | 0.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 0.00 | 3,298,000.00 |
| (ङ) पूँजीगत संचय (भग्ननिर्माण व भवन मरम्मत अंग्रिम) | | | |
| विगत वर्ष का शेष | | 29,058,413.00 | 31,533,829.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 7,252,243.00 | 6,450,000.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 11,550,200.00 | 24,760,456.00 |
| (च) पूँजीगत संचय (भवननिधि पर व्याज अर्जन) | | | |
| विगत वर्ष का शेष | | 0.00 | 8,667,827.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 0.00 | 2,528,601.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 0.00 | - 11,196,428.00 0.00 |
| (ज) पूँजीगत संचय (अन्य सम्पत्तियाँ) विगत वर्ष का शेष | | 72,572,964.39 | 64,654,932.41 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 18,760,978.58 | 18,361,319.43 |
| घटाया: भवननिधि की धनराशि | | 430,000.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 4,118,402.60 | 3,300,160.80 |
| विशेष संचय (हास) विगत वर्ष का शेष | | 0.00 | |
| घटाया: वर्ष का व्यय आधिक्य | | 8,585,538.00 | 78,200,002.37 |
| योग | | 364,518,180.53 | 7,143,126.65 72,572,964.39 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

| सूची 3 -चिह्नित अक्षयनिधि | योग | | | | (Amount-Rs.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | | |
| (क) प्रारम्भिक शेष (प्रो. के.एस. मृति, प्रो. ए.के. सरन व प्रीति इण्डोमेन्ट फण्ड रु. 6,24,413.00 और ब्याज रु. 5,41,222.00) | | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | 1,165,635.00 | | 1,165,635.00 | | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 363,536.00 | | 0.00 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 0.00 | 1,529,171.00 | 0.00 | 1,165,635.00 | |
| (ख) यू.जी.सी. द्वारा विलीनीकृत योजना पर प्राप्त अनुदान | | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | 27,536.00 | | (-) 5161.00 | | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 9,900,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 9,824,616.25 | 102,919.75 | 9,967,303.00 | 27,536.00 | |
| (ग) यू.जी.सी. द्वारा सामान्य विकास योजना पर प्राप्त अनुदान | | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | 9,751,761.00 | | 13,326,245.00 | | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 7,300,000.00 | | 0.00 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 9,474,193.00 | 7,577,568.00 | 3,574,484.00 | 9,751,761.00 | |
| (घ) नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड नई दिल्ली द्वारा अनुदान | | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | 500,000.00 | | 0.00 | | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | | 500,000.00 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| (इ) तस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त धनराशि | | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | 12,284.60 | | 0.00 | | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 400,000.00 | | 496,633.60 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 374,379.00 | 37,905.60 | 484,349.00 | 12,284.60 | |
| शेष आगे ले गये | | 9,747,564.35 | | 11,457,216.60 | |

| | | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | शेष आगे ले आये | | |
| (च) भारत सरकार के योजनेतर अनुदान | | 9,747,564.35 | 11,457,216.60 |
| विगत वर्ष का शेष | 3,330.64 | 406,170.27 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 98,389,670.00 | 108,291,432.00 | |
| विश्वविद्यालय का वर्ष के अन्तर्गत आय | 4,087,585.00 | | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 102,468,577.91 | 12,007.73 | 108,694,271.63 |
| (छ) भारत सरकार के योजनान्तर्गत अनुदान | | | 3,330.64 |
| विगत वर्ष का शेष | 2,640.18 | 8,358.18 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 57,997,360.00 | 57,991,642.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 57,999,852.65 | 147.53 | 57,997,360.00 |
| (ज) भारत सरकार के उत्तरपूर्व परिक्षेत्र योजना का अनुदान | | | 2,640.18 |
| विगत वर्ष का शेष | 3,803,958.00 | 0.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | 4,818,000.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 959,395.00 | 2,844,563.00 | 1,014,042.00 |
| (झ) कारपस कोष से प्राप्त ब्याज की शेष राशि | | | 3,803,958.00 |
| विगत वर्ष का शेष | 212,064.00 | 1,180,487.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 874,557.00 | 1,536,677.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 1,086,060.00 | 561.00 | 2,505,100.00 |
| (ञ) परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय द्वारा प्राप्त दान | | | 212,064.00 |
| विगत वर्ष का शेष | 500,000.00 | 0.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | 4,000,000.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 0.00 | 500,000.00 | 3,500,000.00 |
| (ट) प्रीती इण्डोमैंट फण्ड पर प्राप्त ब्याज | | | 500,000.00 |
| विगत वर्ष का शेष | 40,408.00 | 32,497.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | 45,997.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 39,160.00 | 1,248.00 | 38,086.00 |
| (ठ) धर्मशाला द्वारा प्राप्त धनराशि | | | 40,408.00 |
| विगत वर्ष का शेष | 79,450.00 | 0.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 535,000.00 | 1,309,450.00 | |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 614,450.00 | - | 1,230,000.00 |
| (ड) उच्च तकनीकी अध्ययन अरुणांचल प्रदेश द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति धनराशि | 5,425.00 | | 79,450.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | 0.00 | 5,425.00 | 0.00 |
| (ढ) सोवा-रिंगपा विभाग के बचत खाते की धनराशि | 499,867.20 | 499,867.20 | 0.00 |
| योग | 13,611,383.81 | | 16,099,067.42 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

| सूची 7 - वर्तमान भुगतान हेतु दायित्व | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| (अ) कर्मचारियों के जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. बैलेन्स, बैंक व यू.टी.आई. विनिमयानुसार- | | | | |
| विगत वर्ष का सावधि जमा शेष | | 50,636,161.00 | | 41,618,273.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत सावधि जमा | | 53,595,825.00 | | 27,740,784.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | | 36,914,487.00 | 67,317,499.00 | 18,722,896.00 |
| विगत वर्ष का शेष- बचत खाता जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. | | 1,049,181.80 | | 1,876,181.80 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 37,575,423.00 | | 16,623,741.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | | 37,363,388.00 | 1,261,216.80 | 17,450,741.00 |
| प्रारम्भिक शेष निवेष पर अर्जित ब्याज | | 11,249,903.00 | | 10,736,067.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत अर्जित व्यय | | (-) 6,492,724.00 | 4,757,179.00 | 513,836.00 |
| | योग | | 73,335,894.80 | 62,935,245.80 |
| (ब) ग्रन्थालय के पाठकों से प्राप्त अमानत जमा | | | | |
| विगत वर्ष का शेष | | 58,500.00 | | 56,500.00 |
| वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | | 14,000.00 | | 4,000.00 |
| घटाया: वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ | | 3,000.00 | 69,500.00 | 2,000.00 |
| | योग (अ+ब) | | 73,405,394.80 | 62,993,745.80 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

संची 8 - स्थायी सम्पत्तियाँ-

(धनराशि रूपये में)

| विवरण | द्वास दर (डब्ल्यू.) डी.वी. | सम्पूर्ण स्थिति | | | | वर्ष के अन्तर्गत हास | | | | वास्तविक स्थिति | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | वर्ष का आरम्भिक शेष 1.4.2011 | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत शेष समायोजनाएँ 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2012 | वर्ष का आरम्भिक शेष 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2011- 12 | वर्ष के अन्तर्गत शुद्ध योग 31.03.2012 | वर्तमान वर्ष का शेष 31.03.2012 | विगत वर्ष का शेष 31.03.2011 |
| स्थाइ सम्पत्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| 1. भूमि | | | | | | | | | | | |
| भूमि स्थायी सम्पति (पंजीयन के अनुसार) | | 30,450,748.84 | 244,340.00 | 0.00 | 30,695,088.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 30,695,088.84 | 30,450,748.84 |
| 2. भवन | | | | | | | | | | | |
| भवन की लागत निम्नानुसार- | | | | | | | | | | | |
| (अ) के.लो.न. विभाग द्वारा | 1.63% | 40,343,914.51 | 0.00 | 0.00 | 40,343,914.51 | 3,309,466.12 | 657,606.00 | 0.00 | 3,967,072.12 | 36,376,842.39 | 37,034,448.39 |
| (ब) लो.नि. विभाग द्वारा | 1.63% | 9,885,607.49 | 0.00 | 0.00 | 9,885,607.49 | 483,406.20 | 161,135.00 | 0.00 | 644,541.20 | 9,241,066.29 | 9,402,201.29 |
| (स) राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन की लागत | 1.63% | 10,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,140,000.00 | 831,798.00 | 165,282.00 | 0.00 | 997,080.00 | 9,142,920.00 | 9,308,202.00 |
| (द) एच.एस.डब्ल्यू.सी.एल. द्वारा भवन की लागत | 1.63% | 41,139,828.00 | 45,188,854.00 | 0.00 | 86,328,682.00 | 953,803.00 | 1,407,158.00 | 0.00 | 2,360,961.00 | 83,967,721.00 | 40,186,025.00 |
| (य) कन्स्ट्रक्शन व डिजाइन सर्विसेज यू.पी. जलनिगम द्वारा | 1.63% | 72,527,749.00 | - | 0.00 | 72,527,749.00 | 3,942,023.16 | 1,182,202.00 | 0.00 | 5,124,225.16 | 67,403,523.84 | 68,585,725.84 |
| विभागीय भवन-निर्माण संस्थान द्वारा | 1.63% | 747,367.82 | 0.00 | 0.00 | 747,367.82 | 61,307.30 | 1,000.00 | 0.00 | 62,307.30 | 685,060.52 | 686,060.52 |
| बाउण्डरीवाल का निर्माण व विस्तार | 1.63% | 112,848.50 | 0.00 | 0.00 | 112,848.50 | 9,257.06 | 1,839.00 | 0.00 | 11,096.06 | 101,752.44 | 103,591.44 |
| वास्केट बाल खेल मैदान का निर्माण | 1.63% | 100,564.00 | 0.00 | 0.00 | 100,564.00 | 8,249.98 | 1,639.00 | 0.00 | 9,888.98 | 90,675.02 | 92,314.02 |
| वेस्ट याटर सिस्टम | 1.63% | 6,464,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,464,900.00 | 423,227.77 | 105,378.00 | 0.00 | 528,605.77 | 5,936,294.23 | 6,041,672.23 |
| फट्यारे की लागत | 1.63% | 913,000.00 | 0.00 | 0.00 | 913,000.00 | 51,654.90 | 14,882.00 | 0.00 | 66,536.90 | 846,463.10 | 861,345.10 |
| भूमिगत इलेक्ट्रिक केविल | 1.63% | 3,298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,298,000.00 | 268,786.60 | 53,758.00 | 0.00 | 322,544.60 | 2,975,455.40 | 3,029,213.40 |
| 3. मरीनरी व उपकरण | | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| ट्रॉबेल | 4.75% | 336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 336,000.00 | 95,760.00 | 15,960.00 | 0.00 | 111,720.00 | 224,280.00 | 240,240.00 |
| ट्रान्सफार्मर | 4.75% | 162,855.00 | 0.00 | 0.00 | 162,855.00 | 46,412.82 | 7,736.00 | 0.00 | 54,148.82 | 108,706.18 | 116,442.18 |
| 1000 के.वी.एस. सब स्टेशन का मूल्य | 4.75% | 0.00 | 2,419,000.00 | 0.00 | 2,419,000.00 | 0.00 | 114,903.00 | 0.00 | 114,903.00 | 2,304,097.00 | 0.00 |
| ओरयन्ट काउण्डेशन द्वारा प्रदत्त ग्रन्थालय को इन्टरनेट | 4.75% | 447,900.00 | 0.00 | 0.00 | 447,900.00 | 127,651.40 | 21,275.00 | 0.00 | 148,926.40 | 298,973.60 | 320,248.60 |
| इन्टरनेट (ग्रन्थालय) | 4.75% | 1,248,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,248,700.00 | 355,879.25 | 59,313.00 | 0.00 | 415,192.25 | 833,507.75 | 892,820.75 |
| शेष आगे ले गये | | 218,319,983.16 | 47,852,194.00 | - | 266,172,177.16 | 10,968,683.56 | 3,971,066.00 | - | 14,939,749.56 | 251,232,427.60 | 207,351,299.60 |

| विवरण | सम्पूर्ण स्थिति | | | | | वर्ष के अन्तर्गत हास | | | | वास्तविक स्थिति | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| | हास दर (डब्ल्यू. टी.वी.) | वर्ष का आरम्भिक शेष 1.4.2011 | वर्ष के अन्तर्गत जोड 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2011- 12 | वर्ष के अन्तर्गत शेष 31.3.2012 | वर्ष का आरम्भिक शेष 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत जोड 2011-12 | वर्ष के अन्तर्गत समायोजनाएँ 2011- 12 | वर्ष के अन्तर्गत शुद्ध योग 31.03.2012 | वर्तमान वर्ष का शेष 31.03.2012 | विगत वर्ष का शेष 31.03.2011 | |
| शेष आगे ने आये | | 218,319,983.16 | 47,852,194.00 | - | 266,172,177.16 | 10,968,683.56 | 3,971,066.00 | - | 14,939,749.56 | 251,232,427.60 | 207,351,299.60 | |
| एयर कंडीशन (भण्डार) (गन्धालय) (आयुर्वेद) | 4.75% | 1,654,994.76 | 29,050.00 | 530,869.37 | 1,153,175.39 | 246,536.84 | 54,776.00 | 151,298.00 | 150,014.84 | 1,003,160.55 | 1,408,457.92 | |
| | 4.75% | 690,494.70 | 0.00 | 0.00 | 690,494.70 | 196,790.50 | 32,799.00 | 0.00 | 229,589.50 | 460,905.20 | 493,704.20 | |
| | 4.75% | 73,051.00 | 0.00 | 0.00 | 73,051.00 | 20,819.84 | 3,470.00 | 0.00 | 24,289.84 | 48,761.16 | 52,231.16 | |
| जिरोक्स/इप्लीकटिंग मशीन (भण्डार) (गन्धालय) (आयुर्वेद) | 4.75% | 839,183.00 | - | 207,500.00 | 631,683.00 | 97,748.12 | 30,005.00 | 49,281.00 | 78,472.12 | 553,210.88 | 741,434.88 | |
| | 4.75% | 2,928,659.19 | 0.00 | 217,205.40 | 2,711,453.79 | 816,051.45 | 128,794.00 | 61,904.00 | 882,941.45 | 1,828,512.34 | 2,112,607.74 | |
| | 4.75% | 78,387.00 | - | 0.00 | 78,387.00 | 7,446.00 | 3,723.00 | 0.00 | 11,169.00 | 67,218.00 | 70,941.00 | |
| टाइपराइटर (भण्डार) (गन्धालय) | 4.75% | 31,560.96 | 0.00 | 0.00 | 31,560.96 | 8,994.20 | 1,499.00 | 0.00 | 10,493.20 | 21,067.76 | 22,566.76 | |
| | 4.75% | 37,192.87 | 0.00 | 0.00 | 37,192.87 | 10,600.34 | 1,767.00 | 0.00 | 12,367.34 | 24,825.53 | 26,592.53 | |
| फैक्स/टेलीफोन और इन्टरकॉम (भण्डार) (गन्धालय) (निदेशक कार्यालय) (शब्दकोश) | 4.75% | 551,207.50 | 0.00 | 8,195.00 | 543,012.50 | 156,333.00 | 25,793.00 | 2,336.00 | 179,790.00 | 363,222.50 | 394,874.50 | |
| | 4.75% | 42,954.00 | 0.00 | 0.00 | 42,954.00 | 12,241.00 | 2,040.00 | 0.00 | 14,281.00 | 28,673.00 | 30,713.00 | |
| | 4.75% | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 6,727.00 | 1,173.00 | 0.00 | 7,900.00 | 16,800.00 | 17,973.00 | |
| | 4.75% | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 314.00 | 52.00 | 0.00 | 366.00 | 734.00 | 786.00 | |
| कम्प्यूटर (आयुर्वेद) (भण्डार) (गन्धालय) (शब्दकोश) (प्रकाशन) | 4.75% | 186,255.67 | 183,637.00 | 0.00 | 369,892.67 | 43,062.00 | 8,847.00 | 0.00 | 51,909.00 | 317,983.67 | 143,193.67 | |
| | 4.75% | 7,012,684.71 | 3,514,842.37 | 28,549.00 | 10,498,978.08 | 430,342.43 | 498,701.00 | 8,136.00 | 920,907.43 | 9,578,070.65 | 6,582,342.28 | |
| | 4.75% | 6,157,864.94 | 0.00 | 829,254.00 | 5,328,610.94 | 1,812,366.00 | 253,109.00 | 236,337.00 | 1,829,138.00 | 3,499,472.94 | 4,345,498.94 | |
| | 4.75% | 2,664,303.00 | 0.00 | 40,560.00 | 2,623,743.00 | 735,876.50 | 124,628.00 | 11,560.00 | 848,944.50 | 1,774,798.50 | 1,928,426.50 | |
| | 4.75% | 1,135,889.50 | 0.00 | - | 1,135,889.50 | 893,052.00 | 53,955.00 | 0.00 | 947,007.00 | 188,882.50 | 242,837.50 | |
| | 4.75% | 1,558,798.00 | 0.00 | 0.00 | 1,558,798.00 | 444,213.00 | 74,043.00 | 0.00 | 518,256.00 | 1,040,542.00 | 1,114,585.00 | |
| टी.वी./वी.सी.आर./स्ला.प्रोजेक्टर (भण्डार) (गन्धालय) | 4.75% | 186,390.00 | 131,400.00 | 52,270.00 | 265,520.00 | 53,123.00 | 12,612.00 | 14,897.00 | 50,838.00 | 214,682.00 | 133,267.00 | |
| | 4.75% | 540,589.00 | 0.00 | 0.00 | 540,589.00 | 154,065.00 | 25,678.00 | 0.00 | 179,743.00 | 360,846.00 | 386,524.00 | |
| साइकिल व ट्राली (भण्डार) (जनरेटर) (गन्धालय) (शब्दकोश) | 7.07% | 4,671.60 | 0.00 | 1,350.00 | 3,321.60 | 1,981.50 | 235.00 | 573.00 | 1,643.50 | 1,678.10 | 2,690.10 | |
| | 4.75% | 476,290.00 | 0.00 | 0.00 | 476,290.00 | 135,741.00 | 22,624.00 | 0.00 | 158,365.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 4.75% | 166,891.88 | 0.00 | 0.00 | 166,891.88 | 47,563.00 | 7,927.00 | 0.00 | 55,490.00 | 111,401.88 | 119,328.88 | |
| | 4.75% | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 30,500.00 | 8,693.00 | 1,449.00 | 0.00 | 10,142.00 | 20,358.00 | 21,807.00 | |
| बाइकर मशीन | (गन्धालय) | 4.75% | 60,213.00 | 0.00 | 0.00 | 60,213.00 | 17,163.00 | 2,860.00 | 0.00 | 20,023.00 | 40,190.00 | 43,050.00 |
| आडियो विजुअल (भण्डार) (गन्धालय) | 4.75% | 2,713,757.91 | 517,032.80 | 0.00 | 3,230,790.71 | 388,061.15 | 153,463.00 | 0.00 | 541,524.15 | 2,689,266.56 | 2,325,696.76 | |
| | 4.75% | 661,735.00 | 0.00 | 0.00 | 661,735.00 | 179,571.00 | 31,432.00 | 0.00 | 211,003.00 | 450,732.00 | 482,168.00 | |
| माइक्रोफिल्म फिश | (गन्धालय) | 4.75% | 254,741.00 | 0.00 | 0.00 | 254,741.00 | 72,603.00 | 12,100.00 | 0.00 | 84,703.00 | 170,038.00 | 182,138.00 |
| माइक्रोफिल्म रोल | (गन्धालय) | 4.75% | 541,320.00 | 0.00 | 0.00 | 541,320.00 | 154,277.00 | 25,713.00 | 0.00 | 179,990.00 | 361,330.00 | 387,043.00 |
| शेष आगे ने गये | | 249,626,363.35 | 52,228,156.17 | 1,915,752.77 | 299,938,766.75 | 18,121,039.43 | 5,566,333.00 | 536,322.00 | 23,151,050.43 | 276,787,716.32 | 231,505,323.92 | |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

सूची 10 - अन्य विनियोग

| विवरण | वर्ष का आरम्भिक मूल्य 1.4.2011 | वर्ष के अनतर्गत जोड 2011-12 | वर्ष के अनतर्गत समायोजनाएँ 2011-12 | वर्ष के अनतर्गत शेष 31.3.2012 | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| सावधि जमा (प्रो. के. एस. मूर्ति, प्रो. ए. के. सरन व प्रीति इण्डोमेन्ट फण्ड) | 624,413.00 | | | 624,413.00 | 624,413.00 | 624,413.00 |
| सावधि जमा पर अर्जित ब्याज | 541,222.00 | 363,536.00 | 0.00 | 904,758.00 | 904,758.00 | 541,222.00 |
| सावधि जमा कारपस कोश ब्याज सहित | 74,508,620.00 | 1,202,715.00 | 1,086,060.00 | 74,625,275.00 | 74,625,275.00 | 74,508,620.00 |
| सामान्य भविष्यनिधि एवं कर्मचारी भविष्यनिधि बैंक में जमा तथा रिजर्व बैंक बाण्ड/के.डी.आर. में विनियोग के अनुसार | 50,636,161.00 | 53,595,825.00 | 36,914,487.00 | 67,317,499.00 | 67,317,499.00 | 50,636,161.00 |
| प्रारम्भिक शेष जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. | 1,049,181.80 | 37,575,423.00 | 37,363,388.00 | 1,261,216.80 | 1,261,216.80 | 1,049,181.80 |
| अर्जित ब्याज जो प्राप्त नहीं है | 11,249,903.00 | 0.00 | 6,492,724.00 | 4,757,179.00 | 4,757,179.00 | 11,249,903.00 |
| <u>सावधि जमा</u> | | | | | | |
| सोवा-रिगपा विभाग का रिवॉल्विंग फण्ड | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| सोवा-रिगपा विभाग के रिवॉल्विंग फण्ड पर प्राप्त ब्याज | 0.00 | 632,621.00 | 0.00 | 632,621.00 | 632,621.00 | 0.00 |
| योग | 138,609,500.80 | 93,970,120.00 | 81,856,659.00 | 150,722,961.80 | 150,722,961.80 | 138,609,500.80 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी

(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र (बैलेन्स सीट)

सूची 11 - वर्तमान सम्पत्तियाँ, ऋण व अग्रिम

| विवरण | | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| अ) वर्तमान सम्पत्तियाँ - | | | |
| 1. | विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य | 7,963,068.02 | 7,598,107.02 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 875,072.00 | 785,184.00 |
| | घटाया- पुस्तकों का विक्रय मूल्य | 350,537.00 | 8,487,603.02 |
| 2. | रोकड़ हाथ में - आरम्भिक शेष | 15,955.00 | 20,199.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 6,596.00 | 15,955.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 15,955.00 | 6,596.00 |
| 3. | बैंकों में अवशेष | | |
| | क) यूनियन बैंक में आरम्भिक शेष | 14,991,932.42 | 15,005,096.45 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 11,651,845.61 | 14,991,932.42 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 14,991,932.42 | 11,651,845.61 |
| | ख) केनरा बैंक में (एफ.सी.1) - आरम्भिक शेष | 10,451.68 | 10,551.68 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | 0.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 832.00 | 9,619.68 |
| | ग) सोवा-रिगपा के बचत खाते का शेष | 499,867.20 | 499,867.20 |
| (ब) ऋण व अग्रिम तथा अन्य सम्पत्तियाँ - | | | |
| 1. | <u>अग्रिम -</u> | | |
| | क) त्यौहार अग्रिम - आरम्भिक शेष | 171,000.00 | 166,770.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 221,250.00 | 177,000.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 175,500.00 | 216,750.00 |
| | ख) वाहन अग्रिम - आरम्भिक शेष | 704,140.00 | 917,470.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 174,000.00 | 135,240.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 318,740.00 | 559,400.00 |
| | ग) भवन अग्रिम - आरम्भिक शेष | 395,500.00 | 510,280.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | 0.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 114,780.00 | 280,720.00 |
| | घ) अस्थाई अग्रिम - आरम्भिक शेष | 131,671.00 | 131,671.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 300,000.00 | 0.00 |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 125,391.00 | 306,280.00 |
| | शेष आगे ले गये | | 22,018,681.51 |
| | | | 24,383,718.12 |

| विवरण | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| शेष आगे ले आये | | | 22,018,681.51 | | 24,383,718.12 |
| 2. | <u>जमा -</u> | | | | |
| | क) सी.एण्ड डी.एस. यू.पी. जलनिगम के साथ-आरम्भिक शेष | 0.00 | | 1,425,416.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | | 0.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 0.00 | - | 1,425,416.00 | 0.00 |
| | ख) एच.एस.डब्ल्यू.सी.एल. के साथ जमा - आरम्भिक शेष | 11,550,000.00 | | 12,600,000.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 7,252,243.00 | | 6,450,000.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 11,550,000.00 | 7,252,243.00 | 7,500,000.00 | 11,550,000.00 |
| | ग) पी.वी.वी.एन. के साथ जमा - आरम्भिक शेष | 17,508,213.00 | | 17,508,213.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत जोड़ | 0.00 | | 0.00 | |
| | वर्ष के अन्तर्गत समायोजन | 0.00 | 17,508,213.00 | 0.00 | 17,508,213.00 |
| 3. | <u>अमानत जमा -</u> | | | | |
| | क) टेलीफोन विभाग | 22,410.00 | | 22,410.00 | |
| | ख) अरबन इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूसन वाराणसी - खण्ड 5 | 186,634.00 | | 186,634.00 | |
| | ग) नगरमहापालिका | 25.00 | | 25.00 | |
| | घ) संस्थान की बैंक गारंटी | 8,000.00 | | 8,000.00 | 217,069.00 |
| | बैंक गारंटी का नगदीकरण | (-) 8000.00 | 209,069.00 | | |
| | योग | | 46,988,206.51 | | 53,659,000.12 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का आय-व्यय विवरण

(Amount-Rs.)

| संची 12 - विक्रय से आय | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1) विक्री से आय- | | |
| 2) वसूली से आय- | | |
| (क) गृह अग्रिम पर व्याज | 75,366.00 | |
| (ख) विजली व्यय से वसूली | 493,076.00 | 465,247.00 |
| (ग) अनुज्ञासि फीस | 102,153.00 | 95,059.00 |
| (घ) स्कूटर अग्रिम पर व्याज | 60,455.00 | 92,890.00 |
| (ङ) परीक्षा से आय | 118,000.00 | 117,300.00 |
| योग | 849,050.00 | 770,496.00 |
| संची 13 - अनुदान | | |
| 1) भारत सरकार के संस्कृति मन्त्रालय के संस्कृति विभाग नई दिल्ली से प्राप्त | | |
| (क) योजनेतर विगत वर्ष का अवशेष 2010-11 | 98,389,670.00 3,330.64 | 93,594,000.00 4,06,170.27 |
| संस्थान की विविध आय 2011-12 | 1,405,315.00 | 12,319,693.00 |
| कुल अनुदान | 99,798,315.64 | 106,319,863.27 |
| घटाया - पूँजीगत व्यय | (-) 3,95,250.00 | (-) 11,524,623.00 |
| घटाया - अवशेष धनराशि वर्ष 2011-12 | (-) 12,007.73 | (-) 3,330.64 |
| | 99,391,057.91 | 94,791,909.63 |
| (ख) योजनान्तर्गत विगत वर्ष का अवशेष 2010-11 | 57,997,360.00 2,640.18 | 57,991,642.00 8,358.18 |
| कुल अनुदान | 58,000,000.18 | 58,000,000.18 |
| घटाया - पूँजीगत व्यय | (-) 40,699,866.92 | (-) 38,449,386.04 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2011-12 | (-) 147.53 | (-) 2,640.18 |
| (ग) एन. इ. आर. प्रोजेक्ट विगत वर्ष का अवशेष 2010-11 | - 3,803,958.00 | 4,818,000.00 0.00 |
| कुल अनुदान | 3,803,958.00 | 4,818,000.00 |
| घटाया - पूँजीगत व्यय | - | 459,500.00 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2011-12 | (-) 2844563.00 | 3,803,958.00 |
| यू.जी.सी. सामान्य विकास योजना | 7,300,000.00 | 0.00 |
| विगत वर्ष का अवशेष 2010-11 | 9,751,761.00 | 13,326,245.00 |
| कुल अनुदान | 17,051,761.00 | 13,326,245.00 |
| घटाया - पूँजीगत व्यय | (-) 85,08,719.00 | (-) 1,012,500.00 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2011-12 | (-) 75,77,568.00 | (-) 9,751,761.00 |
| यू.जी.सी. विलीनीकृत योजना | 9,900,000.00 | 10,000,000.00 |
| विगत वर्ष का अवशेष 2010-11 | 27,536.00 | (-) 5,161.00 |
| कुल अनुदान | 9,927,536.00 | 9,994,839.00 |
| घटाया - पूँजीगत व्यय | (-) 9,644,569.66 | (-) 8,348,953.39 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2011-12 | (-) 1,02,919.75 | (-) 27,536.00 |
| यू.जी.सी. द्वारा डॉ. डी. आर. सिंह के प्रोजेक्ट हेतु प्राप्त धनराशि | 375,000.00 | 170,000.00 |
| परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय से प्राप्त धनराशि | 375,000.00 | 1,309,450.00 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2010-11 | 79,450.00 | (-) 79,450.00 |
| शेष आगे ले गये | | |
| | 119,250,409.23 | 120,474,759.20 |

| शेष आगे ले आये | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| स्मिथ कालेज (प्रो. जे. गारफील्ड) द्वारा प्राप्त अनुदान | 400,000.00 | 119,250,409.23 | 496,633.60 | 120,474,759.20 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2010-11 | 12,284.60 | | (-) 12,284.60 | 484,349.00 |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2011-12 | (-) 37,905.60 | 374,379.00 | | |
| नेशनल मेडिसिनल प्लांट नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान | 0.00 | | 500,000.00 | |
| वर्ष के अन्तर्गत अवशेष | 0.00 | 0.00 | (-) 500,000.00 | 0.00 |
| इंडोमेन्ट फण्ड पर प्राप्त व्याज | - | | 45,997.00 | |
| प्रोटो इण्डोमेन्ट फण्ड पर प्राप्त व्याज का अवशेष वर्ष 2009-10 | 40,408.00 | | 32,497.00 | |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2010-11 | (-) 1,248.00 | 39,160.00 | (-) 40,408.00 | 38,086.00 |
| बी.एड हेन्टु धर्मशाला कार्यालय द्वारा प्राप्त अनुदान | | 160,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| तस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि | | - | 449,275.00 | 449,275.00 |
| अमेरिकन बुद्धिस्ट स्टडीज द्वारा प्राप्त अनुदान | | - | 903,250.00 | 903,250.00 |
| कारपस कोस का प्रारम्भिक शेष | 874,557.00 | | 1,536,677.00 | |
| कारपस कोष पर प्राप्त व्याज | 212,064.00 | | 1,180,487.00 | |
| घटाया - चालू वर्ष का अवशेष 2010-11 | (-) 561.00 | 1,086,060.00 | (-) 212,064.00 | 2,505,100.00 |
| योग | | 120,910,008.23 | | 125,304,819.20 |
| सूची 15 - विनियोग से आय | | | | |
| (1) विश्वविद्यालय के बचत खाते पर प्राप्त व्याज | | 1,433,863.00 | 1,076,454.00 | |
| (2) बैंक गारंटी के सावधान पर प्राप्त व्याज | योग | 52,884.00 | 0.00 | 1,076,454.00 |
| | | 1,486,747.00 | 1,076,454.00 | |
| सूची 16 - पुस्तक की विक्री से आय | | 0 | | |
| सूची 18 - अन्य प्राप्तियाँ | | | | |
| 1) विविध आय | | 346,473.00 | 530,789.00 | 530,789.00 |
| योग | | 346,473.00 | | 530,789.00 |
| सूची 20 - स्थापनन व्यय | | | | |
| (अ) वेतन और भत्ते | | | | |
| वेतन व भत्ते | | 67,539,392.00 | | 62,876,019.00 |
| पैशन एवं ग्रेच्युटी | | 10,421,295.00 | | 9,080,117.00 |
| एल.टी.सी./एच.टी.सी. | | 257,886.00 | | 216,367.00 |
| कमेचारी चिकित्सा पर व्यय | | 531,096.00 | | 589,125.00 |
| बाल शिक्षा भत्ता | | 443,401.00 | | 341,258.00 |
| कमेचारी वर्दी पर व्यय | | - | | 44,355.00 |
| कमेचारी प्रतिपूरक भत्ता | | 7,329.00 | | 16,983.00 |
| रिक्त पदों पर अस्थाइ कमेचारियों को दिये गये मानदेय | | 4,345,213.00 | | 3,678,197.00 |
| योग | | 83,545,612.00 | | 76,842,421.00 |
| | | 83,545,612.00 | | 76,842,421.00 |
| सूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय | | | | |
| (ब) रखरखाव | | | | |
| रिक्त पदों पर अस्थाइ प्राध्यापकों की नियुक्ति पर व्यय | | 3,838,323.00 | 3,437,803.00 | |
| प्रोफेशनल ट्रेनिंग व विजिटिंग प्रोफेसर | | 240,000.00 | 14,525.00 | |
| बागवानी पर व्यय | | 925,117.00 | 1,500,557.00 | |
| शिक्षा शास्त्री विभाग पर व्यय | | 456,326.00 | 747,422.00 | |
| छात्रवृत्ति | | 2,348,125.00 | 2,275,598.00 | |
| शैक्षणिक यात्रा पर व्यय | | 172,009.00 | 198,997.00 | |
| दवा क्रय पर व्यय | | 502,711.00 | 315,726.00 | |
| जनरेटर सेट/ग्रन्थालय/साज-सज्जा पर व्यय | | 681,159.00 | 1,107,894.00 | |
| भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | | 84,023.00 | 181,065.00 | 9,779,587.00 |
| शेष आगे ले गये | | 9,247,793.00 | | 9,779,587.00 |

| | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| शेष आगे ले आये | | 9,247,793.00 | | 9,779,587.00 |
| कार्यालयी वाहन पर व्यय | 281,090.00 | | 204,229.00 | |
| जनरेटर सेट के डीजल पर व्यय | 2,699,732.00 | | 3,545,048.00 | |
| विद्युत सामग्री के क्रय | 191,647.00 | | 333,451.00 | |
| विद्युत व्यय | 2,106,622.00 | | 1,833,836.00 | |
| टेलीफोन पर व्यय | 102,973.00 | | 152,924.00 | |
| परीक्षा पर व्यय | 809,228.00 | | 806,628.00 | |
| आयुर्वेद विभाग के शैक्षणिक यात्रा पर व्यय | - | | 115,000.00 | |
| आयुर्वेद विभाग की सामग्री का क्रय | 675,537.00 | 6,866,829.00 | 643,430.00 | 7,634,546.00 |
| (स) आनुसांसिक | | | | |
| यात्रा-भत्ता पर व्यय | 427,326.00 | | 719,672.00 | |
| व्याख्यानमाला पर व्यय | 23,710.00 | | 64,413.00 | |
| अंकेक्षण पर व्यय | 281,898.00 | | 101,481.00 | |
| सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय | 12,320.00 | | 26,064.00 | |
| सदस्यता शुल्क (ए.आई.यू./ए.सी.यू./आई.आई.सी.) | 78,107.00 | | 208,801.65 | |
| सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर व्यय | 158,726.00 | | 183,534.00 | |
| स्टेशनरी व छपाई पर व्यय | 397,113.00 | | 382,340.00 | |
| पत्रप्रेषण पर व्यय | 38,158.00 | | 47,099.00 | |
| विविध व्यय | 145,367.91 | | 201,286.98 | |
| विज्ञापन पर व्यय | 389,367.00 | | 586,818.00 | |
| वार्षिक उत्सव/दीक्षान्त समारोह पर व्यय | 246540.00 | | 0.00 | |
| खेलकूद | 77,235.00 | | 132,610.00 | |
| कानूनी व्यय | 11,210.00 | | 40,357.00 | |
| ग्रीष्म व शरद छात्र कैम्पिंग | 36,607.00 | | 107,367.00 | |
| जल-कर पर व्यय | 89,409.00 | | 89,409.00 | |
| बी.एस.एल. लोन पर दिया गया ब्याज | - | 2,413,093.91 | 21,842.00 | 2,913,094.63 |
| शेष आगे ले आये | | 18,527,715.91 | | 20,327,227.63 |

| शेष आगे ले आये | | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| योजनान्तर्गत | | 18,527,715.91 | | 20,327,227.63 |
| शब्दकोश विभाग | 484,447.00 | | 327,285.00 | |
| ग्रन्थालय विभाग | 2,168,782.60 | | 2,974,460.70 | |
| दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध अनुभाग | 338,819.00 | | 425,071.00 | |
| पुनरुद्धार एवं अनुवाद अनुभाग | 254,333.00 | | 528,609.00 | |
| अन्य योजनान्तर्गत क्रियाकलाप | 969,543.00 | | 966,723.00 | |
| फर्नीचर एवं साज-सज्जा पर व्यय | 23,046.13 | | 3,402,030.93 | |
| विद्वत् आदान-प्रदान व गोष्ठी पर व्यय | 566,079.00 | | 3,841,755.00 | |
| अहस्तान्तरित धनराशि | 574,349.00 | | 922,544.00 | |
| भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | 7,800,714.00 | | 3,094,746.00 | |
| महायान प्रोजेक्ट का पुनः सम्पादन | 284,591.00 | | 250,101.00 | |
| दूरस्थ शिक्षा पर व्यय | 101,715.00 | | 104,750.00 | |
| संस्थानीय परिसर के योजनाओं पर व्यय | 3,310,711.00 | | 1,463,998.33 | |
| एच.आर. विकास योजना पर व्यय | 422,856.00 | 17,299,985.73 | 0.00 | |
| योजनान्तर्गत पर्दों का वेतन भुगतान | - | | 1,245,900.00 | |
| एन.ई.आर. योजना पर व्यय | 959,395.00 | 959,395.00 | 554,542.00 | 20,102,515.96 |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (11वीं योजना) द्वारा प्राप्त अनुदान का व्यय | | | | |
| फैकल्टी विकास कार्यक्रम पर व्यय | 201,527.00 | | 50,772.00 | |
| साज-सज्जा सामग्री पर व्यय | 180,046.59 | | 1,618,349.61 | |
| संयन्त्रों का रखरखाव | 287,202.00 | | 2,452,639.00 | |
| यात्रा भत्ता व्यय | 476,745.00 | | 58,573.00 | |
| डॉ. डी.आर. सिंह को यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान | - | 1,145,520.59 | 170,000.00 | 4,350,333.61 |
| अनुदानेतर व्यय | | | | |
| भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | - | | 903,250.00 | |
| धर्मशाला द्वारा प्राप्त बी.एड. धनराशि का व्यय | 160,000.00 | | 450,000.00 | |
| स्मिथ कालेज के धनराशि का भुगतान | | | 484,349.00 | |
| परम पावन दलाई लामा जी के कार्यालय से प्राप्त धनराशि का भुगतान | 454,450.00 | | 1,230,000.00 | |
| प्रीति इंडोमेन्ट द्वारा द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान | 39,160.00 | | 38,086.00 | |
| कारपस कोष द्वारा द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान | 1,086,060.00 | | 2,505,100.00 | |
| तस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त धनराशि का भुगतान | 374,379.00 | 2,114,049.00 | 449,275.00 | 6,060,060.00 |
| योग | | 40,046,666.23 | | 50,840,137.20 |
| वर्ष के दौरान चार्ज किया गया सम्पत्तियों पर हास (सूची 8 के अनुसार) | 8,585,538.00 | 8,585,538.00 | 7,143,126.65 | 7,143,126.65 |

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का प्राप्ति व भुगतान-विवरण

प्राप्ति

| विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | | विवरण | भुगतान | | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
| | धनराशि | धनराशि | धनराशि | धनराशि | | धनराशि | धनराशि | | |
| प्रारम्भिक शेष | | | | | योजनेतर | | | | |
| केनरा बैंक में अवशेष जमा (एफ.सी. नं. 1) | 10,451.68 | | 10,551.68 | | (अ) वेतन और भत्ते | | | | |
| केनरा बैंक में अवशेष जमा (एफ.सी. नं. 11) | 0 | | | | देवन एवं भत्ते | | | 67,539,392.00 | 62,876,019.00 |
| यूनियन बैंक में अवशेष जमा (एस.बी. नं.) | 14,991,932.42 | | 15,005,096.45 | | ऐशन भुगतान | | | 10,421,295.00 | 9,080,117.00 |
| नकद रोकड़ | 15,955.00 | 15,018,339.10 | 20,199.00 | 15,035,847.13 | एल.टी.सी./एच.टी.सी. | | | 257,886.00 | 216,367.00 |
| | | | | | कर्मचारी चिकित्सा व्यय | | | 531,096.00 | 589,125.00 |
| | | | | | भवन हेतु क्रण | | | - | - |
| | | | | | कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षा-भत्ता | | | 443,401.00 | 341,258.00 |
| | | | | | त्पीहार अधिग्रहण | | | 221,250.00 | 177,000.00 |
| | | | | | वाहन/कार/कम्प्यूटर अधिग्रहण | | | 174,000.00 | 135,240.00 |
| | | | | | कर्मचारी वर्दी पर व्यय | | | - | 44,355.00 |
| | | | | | अतिरिक्त कार्य भत्ता | | | 7,329.00 | 16,983.00 |
| | | | | | रिक पदों की पूर्ति | | | 4,345,213.00 | 3,678,197.00 |
| | | | | | (ब) रखरखाव | | | | |
| | | | | | रिक पदों पर अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर व्यय | | | 3,838,323.00 | 3,437,803.00 |
| योजनेतर | 98,389,670.00 | | 93,594,000.00 | | प्रोफेशनल ट्रेनिंग व विजिटिंग प्रोफेसर पर व्यय | | | 240,000.00 | 14,525.00 |
| योजनान्तर्गत | 57,997,360.00 | | 57,991,642.00 | | वाहनावृती पर व्यय | | | 925,117.00 | 1,500,557.00 |
| एल.टी.आर. प्रोजेक्ट योजना | - | 156,387,030.00 | 4,818,000.00 | 156,403,642.00 | बी-एड विभाग पर व्यय | | | 456,326.00 | 747,422.00 |
| | | | | | छावडृति | | | 2,348,125.00 | 2,275,598.00 |
| | | | | | यात्रा व्यय | | | 172,009.00 | 198,997.00 |
| | | | | | दवा क्रय हेतु व्यय | | | 502,711.00 | 315,726.00 |
| | | | | | जनरेटर सेट के मरम्मत पर व्यय | | | 681,159.00 | 1,107,894.00 |
| | | | | | भवन के मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय | | | 84,023.00 | 181,065.00 |
| | | | | | कर्मचारी वाहन पर व्यय | | | 281,090.00 | 204,229.00 |
| | | | | | जनरेटर सेट के डीजल पर व्यय | | | 2,699,732.00 | 3,545,048.00 |
| | | | | | विषुल सामग्री क्रय पर व्यय | | | 191,647.00 | 333,451.00 |
| | | | | | विषुल व्यय | | | 2,106,622.00 | 1,833,836.00 |
| | | | | | टेलीफोन पर व्यय | | | 102,973.00 | 152,924.00 |
| | | | | | परीक्षा पर व्यय | | | 809,228.00 | 806,628.00 |
| | | | | | आयुर्वेदिक छात्रों के शैक्षणिक यात्रा पर व्यय | | | - | 115,000.00 |
| पुराती सम्पत्ति के विक्रय से आय (ए.सी.) | 296,412.00 | | 46,723.00 | | आयुर्वेद विभाग की सामग्री का क्रय | | | | 643,430.00 |
| प्रकाशित पुस्तकों की विक्री | 350,537.00 | 646,949.00 | 420,223.00 | 466,946.00 | (स) आनुवांशिक | | | 675,537.00 | |
| | | | | | यात्रा पर व्यय | | | 427,326.00 | 719,672.00 |
| | | | | | ट्याख्यान माला पर व्यय | | | 23,710.00 | 64,413.00 |
| | | | | | मुद्रण व अंकेक्षण शुल्क | | | 281,898.00 | 101,481.00 |
| | | | | | सांस्कृतिक कार्यक्रम | | | 12,320.00 | 26,064.00 |
| | | | | | सदस्यता शुल्क ए.आई.सू., आई.आई.सी., | | | 78,107.00 | 208,801.65 |
| | | | | | सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम | | | 158,726.00 | 183,534.00 |
| | | | | | स्टेशनरी और छपाई | | | 397,113.00 | 382,340.00 |
| योग आगे ले गये | | 174,139,359.10 | | | योग आगे ले गये | | | 101,434,684.00 | 96,255,099.65 |

| विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | | विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| | धनराशि | धनराशि | धनराशि | धनराशि | | धनराशि | धनराशि | धनराशि | धनराशि |
| शेष आगे ले आये | | 174,139,359.10 | | 184,920,296.13 | शेष आगे ले आये | | 101,434,684.00 | 96,255,099.65 | |
| वसूली से प्राप्त आय | | | | | पत्रपेषण पर व्यय | | 38,158.00 | 47,099.00 | |
| त्योहार अंग्रिम वसूली | 175,500.00 | | 172,770.00 | | विज्ञापन पर व्यय | | 389,367.00 | 586,818.00 | |
| स्फटर अंग्रिम वसूली | 318,740.00 | | 348,570.00 | | वार्षिक उत्सव/दीक्षान्त समारोह पर व्यय | | 246,540.00 | - | |
| भवन अंग्रिम क्रृष्ण से वसूली | 114,780.00 | | 114,780.00 | | खेलकूद | | 77,235.00 | 132,610.00 | |
| लाइसेन्स फीस वसूली | 102,153.00 | | 95,059.00 | | कानूनी व्यय | | 11,210.00 | 40,357.00 | |
| विधुत बिल को वसूली से आय | 493,076.00 | | 465,247.00 | 1,196,426.00 | श्रीष्म-शरद कैम्पिंग | | 36,607.00 | 107,367.00 | |
| विगत वर्ष के अंग्रिम समायोजन से वसूली | 125,391.00 | | - | | जल-कर का भुगतान | | 89,409.00 | 89,409.00 | |
| बैंक गारंटी का नकदीकरण | 8,000.00 | 1,337,640.00 | | | नकद हाथ में | | - | 15,955.00 | |
| | | | | | वी.एस.एल. क्रृष्ण पर द्व्याज का भुगतान | | - | 21,842.00 | |
| | | | | | भूमि क्रय भवननिधि पर प्राप्त द्व्याज से | | - | 11,196,428.00 | |
| | | | | | योग (योजनेतर) | | 102,468,577.91 | 108,694,271.63 | |
| | | | | | योजनान्तर्गत | | | | |
| | | | | | शब्दकोश इकाई/इनसाइक्लोपीडिया | | | | |
| | | | | | तिव्वती व संस्कृत में | | 484,447.00 | 327,285.00 | |
| | | | | | ग्रन्थालय के विकास पर व्यय | | 3,114,864.65 | 6,469,072.00 | |
| | | | | | प्रकाशन व छपाई | | 366,353.00 | 785,184.00 | |
| | | | | | दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध इकाई पर व्यय | | 374,162.00 | 438,977.00 | |
| | | | | | पुनरुद्धार व अनुवाद अनुभाग पर व्यय | | 254,333.00 | 528,609.00 | |
| | | | | | अन्य योजनान्तर्गत क्रियाकलाप | | 969,543.00 | 966,723.00 | |
| | | | | | फर्नीचर एवं साज-सज्जा पर व्यय | | 3,456,760.00 | 7,618,519.00 | |
| | | | | | बुद्धिजीवियों के सम्पर्क में अभिवृद्धि, विद्वत् आदान-प्रदान तथा गोष्ठियों पर व्यय | | 566,079.00 | 3,841,755.00 | |
| | | | | | अहस्तांतरित धनराशि | | 574,349.00 | 922,544.00 | |
| | | | | | भवन के मरम्मत व रखरखाव तथा भविगत केविलिंग पर व्यय | | 7,800,714.00 | 3,094,746.00 | |
| | | | | | महायान संस्कृत सीरीज़ टेक्स्ट का पुनः सम्पादन व प्रकाशन | | 284,591.00 | 250,101.00 | |
| | | | | | दूरस्थ शिक्षा पर व्यय | | 101,715.00 | 104,750.00 | |
| | | | | | अस्थायी अंग्रिम | | 300,000.00 | - | |
| | | | | | नकद हाथ में | | 6,596.00 | - | |
| | | | | | योग (योजनान्तर्गत) | | 18,654,506.65 | 25,348,265.00 | |
| शेष आगे ले गये | | 175,476,999.10 | | 186,116,722.13 | शेष आगे ले गये | | 121,123,084.56 | 134,042,536.63 | |

| विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | | विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| | धनराशि | धनराशि | धनराशि | धनराशि | | धनराशि | धनराशि | धनराशि | धनराशि |
| शेष आगे ले आये | | 175,476,999.10 | | 186,116,722.13 | शेष आगे ले आये | | 121,123,084.56 | 134,042,536.63 | |
| | | | | | नई योजनाएं (11वीं पंचवर्षीय योजना) | | | | |
| | | | | | (1) संस्थान के विविध योजना पर व्यय | | 3,368,053.00 | 1,505,052.00 | |
| | | | | | (2) संस्थान के बाहर योजनाओं पर व्यय | | 422,856.00 | - | |
| | | | | | (3) योजनान्तर्गत पदों के वेतन का भुगतान | | - | 1,245,900.00 | |
| | | | | | योग | | 3,790,909.00 | 2,750,952.00 | |
| | | | | | पूँजीगत कार्य/भवन योजना | | | | |
| | | | | | (1) एस.एस.डब्ल्यू.सी.एल./सी.एण्ड डी.एस. द्वारा भवन की लागत | | 27,221,097.00 | 18,082,978.00 | |
| | | | | | (2) जमीन क्रय पर व्यय | | 244,340.00 | 5,365,165.00 | |
| | | | | | (3) पूर्वाचल विघृत वितरण निगम लि. के साथ जमा | | 2,419,000.00 | - | |
| | | | | | (4) एच.एस.डब्ल्यू.सी.एल. एजेन्सी के साथ जमा | | 5,670,000.00 | 6,450,000.00 | |
| | | | | | योग | | 35,554,437.00 | 29,898,143.00 | |
| | | | | | एन.ई.आर. योजना | | | | |
| | | | | | नार्थ ईस्ट रीजन में औषधीय पौधशाला के विकास | | | | |
| | | | | | हेतु व्यय | | 959,395.00 | 1,014,042.00 | |
| | | | | | योग | | 959,395.00 | 1,014,042.00 | |
| यू.जी.सी. से 11वीं योजना हेतु प्राप्त अनुदान | | | | | यू.जी.सी. मद से 11वीं योजना पर व्यय | | | | |
| | | | | | पुस्तक व पत्रिका क्रय | | 2,316,741.25 | 366,076.00 | |
| यू.जी.सी. द्वारा सामान्य विकास योजना हेतु अनुदान | 9,900,000.00 | | | 10,000,000.00 | फर्नीचर व साज-सज्जा पर व्यय | | 7,507,875.00 | 9,601,227.00 | |
| | | | | | सेमिनार/सिम्बोजियम/कन्फ्रेन्स | | - | - | |
| यू.जी.सी. द्वारा विलोनीकृत योजना के लिए प्राप्त अनुदान | 7,300,000.00 | 17,200,000.00 | | | स्थाई सम्पत्तियों के मरम्मत पर व्यय | | 287,202.00 | 2,452,639.00 | |
| | | | | | यात्रा भता पर व्यय | | 476,745.00 | 58,573.00 | |
| | | | | | प्रकाशन व्यय | | 508,719.00 | - | |
| | | | | | कैकल्टी विकास कार्यक्रम पर व्यय | | 201,527.00 | 50,772.00 | |
| | | | | | असमर्थ व्यक्तियों की सुविधा हेतु व्यय | | - | 1,012,500.00 | |
| | | | | | महिला छात्रावास के निर्माण पर व्यय | | 6,417,757.00 | - | |
| | | | | | महिला छात्रावास के निर्माण पर दिया गया अग्रिम | | 1,582,243.00 | - | |
| | | | | | योग यू.जी.सी. | | 19,298,809.25 | 13,541,787.00 | |
| शेष आगे ले गये | | 192,676,999.10 | | 196,116,722.13 | शेष आगे ले गये | | 180,726,634.81 | 181,247,460.63 | |

| विवरण | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 | विवरण | वर्ष 2011-12 | वर्ष 2010-11 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | धनराशि | धनराशि | | धनराशि | धनराशि |
| शेष आगे ले आये | 192,676,999.10 | 196,116,722.13 | शेष आगे ले आये | 180,726,634.81 | 181,247,460.63 |
| बजट विहीन शीर्ष से आय | | | बजट विहीन व्यय | | |
| एच.एस.सी.एल. द्वारा अग्रिम समायोजन | 11,550,000.00 | 7,500,000.00 | एच.एस.सी.एल. द्वारा भवन का निर्माण | 11,550,000.00 | 7,500,000.00 |
| जगदर्भा कन्स्ट्रक्शन द्वारा अग्रिम समायोजन | | | एच.एस.सी.एल./सी.एण्ड डी.एस. द्वारा भवन की मरम्मत व रखरखाव | 160,000.00 | |
| सी.एण्ड डी.एस. यू.पी. जलनिगम द्वारा अग्रिम समायोजन | | 1,425,416.00 | सी.एण्ड डी.एस. द्वारा भवन निर्माण पर व्यय | - | 1,425,416.00 |
| परम पावन दलाई लामा कार्यालय द्वारा बी.एड. हेतु प्राप्त | 160,000.00 | 450,000.00 | परम पावन दलाई लामा जी की धनराशि का भुगतान | 454,450.00 | 1,230,000.00 |
| तस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशि | | 449,275.00 | प्रीति इंडोमैनेट फण्ड पर व्याज का व्यय | 39,160.00 | 38,086.00 |
| परम पावन दलाई लामा द्वारा प्राप्त फण्ड | 375,000.00 | 1,309,450.00 | कारपस कोष व्याज का व्यय | 1,086,060.00 | 2,505,100.00 |
| इंडोमैनेट कोष के सावधि जमा पर प्राप्त व्याज | | 45,997.00 | तस्मानिया विश्वविद्यालय की धनराशि का भुगतान | - | 449,275.00 |
| कारपस कोष पर व्याज | 874,557.00 | 1,536,677.00 | धर्मशाला द्वारा बी.एड. कोर्स पर आंशिक व्यय | - | 450,000.00 |
| परम पावन दलाई लामा के कार्यालय द्वारा प्राप्त दान | | 4,000,000.00 | धर्मशाला द्वारा प्राप्त आवृत्ति के धनराशि का भुगतान | - | |
| स्मिथ कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि | 400,000.00 | 496,633.60 | अमेरिकन बुद्धिस्ट स्टडीज द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार पर व्यय | - | 903,250.00 |
| अमेरिकन बुद्धिस्ट स्टडीज द्वारा प्राप्त धनराशि | | 903,250.00 | एफ.सी.आर.ए. खाता संख्या । पर बैंक-चार्ज | 832.00 | 100.00 |
| एन.एस.पी.वी.हर्बल गार्डन के निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान | | 500,000.00 | दानस्वरूप प्राप्त धनराशि का सावधि जमा | - | 3,500,000.00 |
| अमानत जमा (ग्रंथालय पाठकों द्वारा) | 14,000.00 | 4,000.00 | स्मिथ कालेज द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान | 374,379.00 | 484,349.00 |
| यू.जी.सी. द्वारा डॉ. डी.आर. सिंह हेतु प्राप्त धनराशि | | 170,000.00 | अमानत जमा (ग्रंथालय पाठकों द्वारा) का भुगतान | 3,000.00 | 2,000.00 |
| उच्च तकनीकी अध्ययन अरुणांचल प्रदेश द्वारा प्राप्त | 5,425.00 | | यू.जी.सी. द्वारा डॉ. डी.आर. सिंह हेतु प्राप्त धनराशि का भुगतान | - | 170,000.00 |
| | | | केनरा बैंक में अवशेष (चालू खाता संख्या । मैं) | 9,619.68 | 10,451.68 |
| | | | यूनियन बैंक ओफ इण्डिया के खाते में अवशेष | 11,651,845.61 | 14,991,932.42 |
| | | | योग बजट विहीन मद | 25,329,346.29 | 33,659,960.10 |
| सम्पूर्ण योग | 206,055,981.10 | 214,907,420.73 | सम्पूर्ण योग | 206,055,981.10 | 214,907,420.73 |

ह.अ.
(लवलेश कुमार मिश्र)
कार्यकारी अनु.अ. (वित)

ह.अ.
(डॉ. देवराज सिंह)
कुलसचिव

ह.अ.
(प्रो. नवांग समतेन)
कुलपति

केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी
(मान्य विश्वविद्यालय)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भविष्यनिधि का प्राप्ति व भुगतान-विवरण

प्राप्ति

भुगतान

| विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | | विवरण | वर्ष 2011-12 | | वर्ष 2010-11 | |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | धनराशि | | धनराशि | | | धनराशि | | धनराशि | |
| प्रारम्भिक शेष | | | | | जी.पी.एफ. खाता | | | | |
| जी.पी.एफ. खाते में अवशेष | 2,50,961.80 | | 994,736.80 | | जी.पी.एफ. खाते से किये गये भुगतान | 5,692,738.00 | | | 3,722,554.00 |
| एस.पी.एफ. खाते में अवशेष | 7,98,220.00 | | 881,445.00 | | जी.पी.एफ. खाते से आवर्ती खाते में भुगतान | 5,500,000.00 | | | 5,750,000.00 |
| | | 1,049,181.80 | | 1,876,181.80 | जी.पी.एफ. फण्ड से सावधि निवेश | 24,393,150.00 | | | 6,724,200.00 |
| जी.पी.एफ. में कर्मचारी अंशदान | | 10,242,085.00 | | 8,688,014.00 | सी.पी.एफ. खाता | | | | |
| जी.पी.एफ. खाते पर प्राप्त व्याज | | | 147,447.00 | | सी.पी.एफ. खाते से दिये गये क्रूण का भुगतान | 1,777,500.00 | | | 1,253,987.00 |
| एस.पी.एफ. में कर्मचारी अंशदान | | 1,265,591.00 | | 1,130,038.00 | सी.पी.एफ. खाते से सावधि जमा | | - | | |
| एस.पी.एफ. खाते पर प्राप्त व्याज | | 20,035.00 | | 40,724.00 | बैंक खाते में अवशेष | | | | |
| आवर्ती खाते में जमा | | 25,900,265.00 | | 6,724,200.00 | जी.पी.एफ. खाते में 9,54,870.80 | | | 250,961.80 | |
| | | | | | सी.पी.एफ. खाते में 3,06,346.00 | | 1,261,216.80 | 798,220.00 | 1,049,181.80 |
| कुल योग | | 38,624,604.80 | | 18,499,922.80 | कुल योग | | 38,624,604.80 | | 18,499,922.80 |

ह.अ.

(लवलेश कुमार मिश्र)
कार्यकारी अनु.अ. (वित्)

ह.अ.

(डॉ. देवराज सिंह)
कुलसचिव

ह.अ.

(प्रो. नवांग समतेन)
कुलपति